
विश्वेश्वरानन्द भारतभारती ग्रन्थमाला-३
Vishveshvaranand Indological Series--3

विषयः (Title):

विषयः (VISHVA BANDHU).

परीक्षा, B.A., POL. (Sec. II)

O/A (1911) K.C.T. (1911)

भारते दीव्यार्युं

वि. वी. शो. संस्थानके मुद्रणालये मुद्रणम्

विश्वेश्वरानन्द वेदिकीय संस्थानके

विद्याभवनके मुद्रणालये मुद्रणम्

Printed at

The V. V. R. INSTITUTE PRESS

and Published for

The Vishveshvaranand Vedic Research Institute

By DEVA DATTA Shastri, V. B.

at Hoshiarpur (India).

संस्करण (Edition):

विषयः (VISIVA BANDHU),

कवी (Author), B.A., F.D.L. (Hon. Lit.),

ओडा (सं. प्र. वि. वि. क. वि. क. वि. क. वि. क.)

भारते होरकारपुरे

वि. वे. सो. संस्थानके मुख्यालयके मुख्यालय

विश्वेश्वरानन्दवैदिकप्रयोगशाला-द्वारे

विदाभारतके शास्त्रिणा द्वैतप्रयोग प्रकाशित

Printed at

The V. V. R. INSTITUTE PRESS

and Published for

The Vishveshvaranand Vedic Research Institute

By DEVA DATTA Shastri, V. B.,

at Hoshiarpur (India).

वि. भा. ग्रन्थमाला—३

V. I. Series—3

टण्डनस्य यशःपालस्य
(Yashpal Tandon's)

पुराण-विषय-समनुक्रमणिका
(A Concordance of Purāṇa-Contents)

50 50



होशियारपुरे
(HOSHIARPUR)

विश्वेश्वरानन्दसंस्थान-प्रकाशनमण्डलम्
(Vishveshvaranand Institute Publications)

सर्वेऽपिकायः सुखदिता

प्रकाशक संकेतः,
विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानम्,
साधु-आश्रमः, होशियारपुर (भारते)

प्रथम संस्करणम्, १९५२



All Rights Reserved

Publishers -
VISHVESHVARANAND VEDIC RESEARCH INSTITUTE,
Sadhu Ashram, HOशीYARPUR (India)

First Edition, 1952

प्रस्तावना

प्रस्तान्दयमानायाः सख्यस्याः समनुक्रमणिकाया मौलिकं संकलनं पूर्वमेवोद्भवेभ्यः पूर्वमस्माकं संस्थानस्य लाभपुरीयाया अथस्थितेः समये समपद्यत । यन् नेतः प्राक् संस्कर्तुं प्रकानायितुं चैतद्दातामि, तत्रास्माकं प्रदेशस्याऽग्निष्टविभाजनेन कारिता लाभपुरादस्माकं दुर्बारा दुर्गता च निर्यतिरेव दोषभाग् भवति । यथाधुनापि साधनसंपत्तिविहीनैरस्माभिर्यथाकर्षाच्च कर्मैतत् कर्तुं पारितं, तदस्तोषाय सत् स्यादेव मग्नेषां ग्रन्थमिसमुपयुजानामामपि तोषायेत्येन कान्यते ।

प्राचीनभारतीयस्येतिहासस्य विषये ममीचोनं परिचयं चिकीर्षुणाऽभियुक्तेन प्राग्भारतीय-इतिविदाले बाह्यस्ये सचितस्य सतः पदार्थजातस्य पारदश्यात् भाग्यमेव । न तु महता परिश्रमेण सुदुर्गुह्यं क्रियमाणमपि बाह्यस्यैव पारामगमानं तात्त्विकसौधीययिकान् पदार्थान् साकल्येन संपदि च संप्राहयितुमशकम् । अनेन हेतुना यद् यद् वैदिके लौकिके च साहित्यराशौ तात्त्विकोपयोग्यमे वस्तु समुपनिबद्धमुपलभ्येत, तत् तत् तत्सततः संकलन्याऽऽयुग्मादिशीर्षिकमपानुपातिनीभिःधातुक्रमणीभिरेव द्वाभूनागिरधर्मं सत्वरं च शोधकमिणां विदुषां शौचिव्यविधानाय समुपस्थापनार्हमिति स्पष्टम् ।

एवं शोधार्हवस्तुसर्वस्वानुक्रमणकर्मणो महत्त्वं संप्रधायैवाऽऽस्माकं संस्थानमुपप्रिभोऽभ्युद्भवेभ्यः पूर्वनः शतपद्यकसंख्याकाना साक्षोपाह्वाना वैदिकमेहितामाह्वानारण्यकोपनिषत्सुत्रमन्थानां चतुर्दशभिः खडैः व्युत्स्य सतः पदानुक्रमकोपस्य संपादने श्रायिते । अथुना चैनेन शोधकर्मतत्पर-विद्वज्जनलामैकमतिना सता रामायणमहाभारतेतिहासद्वयेन सहकृतानां प्रसिद्धानामष्टादशसंख्याकानां पुराणमन्थानां विषयसमनुक्रमणीयं प्राकारमनायि । वेदतिहासपुराणातिरिक्ताना सता भारतीय-वाङ्मयषट्कमन्यान्तराणामपि समनुक्रमण्यो नानाविधा अपेक्ष्यन्त इतिहस्वेदानीमपि कर्तुमवशिष्टस्य सतः कर्मणो महदेव क्षेत्रं द्रष्टव्यम् ।

प्रकृतायाः समनुक्रमणया मौलिकस्य संकलनस्य कर्ताऽस्माकं समुन्वा टाण्डनोपाह्वो यशःपालो नाम वर्षद्वयात् प्राग् दिवं यत इति चेत्पिपते चेतः । संकलनं चादः तत्रपि विदुषो विद्यालङ्कारपदभाजो जयचन्द्रस्य परामर्शमुपलब्धवता विदुषा कौलोपाह्वेन श्रीकण्ठेन संरहते च परिवर्धितं च भवति । तेनाव्यत्र चतुर्थे प्रकरणे तत्रदंश्रीयाना राहां यो नामत उद्देशः, तत्रैव (क) खण्डे कलियुगीयानां राजवंशानां मध्ये २-३ च ११-१४ च संख्याभूतां राजवंशानां यो-ऽनुप्रवेशाश्चाकारि, तत्र F. E. Partgiter इत्यस्य विदुष 'The Purana Texts of the Dynasties of the Kali Age' इत्यस्य ग्रन्थस्योपाश्रय ऊरीकृतो वेदितव्यः । एवं सममपि पद्यमं प्रकरणं, द्वादशप्रकरणे नपुणप्रकरणम् इति च द्वयं तेन दिनेशचन्द्रसरकार इत्यस्य विदुष. 'Text of the Puranic List of Peoples' (Indian Historical Quarterly, Vol. XXI, No. 4),

'Text of the Puranic List of Rivers' (Indian Historical Quarterly, Vol. XXVII, No. 3) इति लेखद्वयमुपाश्रित्य व्यरवि । नवमप्रकरणौयो मूलस्थलगतैस्तु विदुषा ईसरार्जेन विदुषो भीमदेवस्याऽऽभ्यक्ष्ये सुतोषितश्च, तदनुपस्थितौ विदुषाऽमरनाथेन शोषितश्च, विदुषो देवदत्तस्याऽऽभ्यक्ष्ये सुगुद्रितश्च सन्नयं ग्रन्थोऽयुना प्राकारयमलब्धः ।

सर्वेषामप्यत्र कृतसंकेतानां विदुषामाभारोऽस्माभिर्हृदयेन स्वीक्रियते । समयभेदेन दृष्टभेदेन च संपादितेऽस्मिन् बहुसाधनव्यपाधये वस्तुनि नानाविधानां बहूनां च रक्षलितीनां सुलभसंघं कैमुतिकं मन्वानैश्चास्माभिः सन्तोऽभियुक्ता मर्यादां च संस्करणान्तरोपयोग्यं शोधनसूचनं च भूयो भूयोऽभ्यर्च्यन्ते,

होरयारपुरे
वि. वे. शोधसंस्थानम्
६-११-१९५२

}

विश्वशङ्खुना

संकलनक्रमेण विषय-शीर्षक-संकेताः

पृष्ठानि

प्रस्तावना	७-८
अकारादिक्रमेण विषय-शीर्षक-संकेताः	८-११
मूलग्रन्थ-नाम-संक्षेपाः	११-१८

प्रथमं प्रकरणम्

उपोढातः—

१ मङ्गलाचरण-प्रारम्भप्रश्न-कृत्यसमुद्देशादि, २ पुराण-लक्षणम्, ३ पुराण-विभागः, ४ पुराण-सेव्या, ५ पुराण-विषयाः, ६ पुराण-साहाय्यम्, ७ पुराण-परम्परा, ८ सूत-धर्माः ३-५

द्वितीयं प्रकरणम्

सृष्टिप्रलयादि—

१ सृष्टिः, २ प्रलयः, ३ विस्र्गाः ... ५-६

तृतीयं प्रकरणम्

कालमानादि—

१ कालमानम्, २ कल्पः, ३ मन्वन्तराणि, ४ युगाधर्माः ... ६-७

चतुर्थं प्रकरणम्

वंश-वंशानुचरितम्—

(क) स्वार्थभुवमनुवंश — १ स्वार्थभुवमनो-शतकन्यायाद्योत्पत्तिः संततिश्च, २ उत्तानपाद-वंशः, ३ प्रियव्रत-वंशः, ४ दक्षकन्या-संततिः, ५ स्वार्थभुवमनुवंश-राजचरितम्—उत्तम-अपम-कापिलेय-दक्षप्राचेतस-भुव-पुराण-पुष्टि-वृष्टु-त्रचेतस्-प्रियव्रत-मद्रथ-भरत-वेन-शनशुक्ल-सुयश-मुशील-स्वायंभुवमनु-परितानि ... ८-१०

(ख) सूर्य-वंशः— वैवस्वतमनुपुत्र-वंशः, १ इक्ष्वाकु-वंशः—कुंग-बृहद्दल-रामाः, २ इक्ष्वाकुपुत्र-वंशः—कुशवज्र-वंशः, दशर-वंशः, नेमि-वंशः, विकुक्षि-वंशः, सुदशन-वंशः, ३ कश्यप-वंशः, ४ कवि-वंशः, ५ दिष्ट-वंशः, ६ भृष्ट-वंशः, ७ तरिष्यन्त-वंशः, ८ नामाग-वंशः, ९ नामागारिष्ट-वंशः, १० नृग-वंशः, ११ पृथङ्ग-वंशः, १२ प्राशु-वंशः, १३ शर्वाति-वंशः, १४ सुशुभ्र-वंशः ... ११-१४

(ग) सोम-वंशः— १ श्याग-वंशः, २ अजु-वंशः, ३ अनेवर-वंशः, ४ अमावसु-वंशः, ५ अजस्र-वंशः, ६ तुर्वसु-वंशः, ७ दुह्य-वंशः, ८ नहुष-वंशः, ९ यदु-वंशः—ककुर-वंशः, मय-वंशः, क्रौटु-वंशः, देवाशु-वंशः, निम्न-वंशः, अजमान-वंशः, महाभोज-वंशः, वृष्णि-वंशः, शिनि-वंशः, हृदय-वंशः, १० रजि-वंशः, ११ रम्भ-वंशः १४-१६

(घ) पुरु-वंशः—१ अजमीड-वंशः, २ मर्य-वंशः, ३ द्विजमीड-वंशः, ४ नर-वंशः, ५ नील-वंशः, ६ पुष्क-जनमेजय-वंशः, ७ बृहत्क्षत्र-वंशः, ८ बृहदियु-वंशः, ९ महावीर्य-वंशः, १० सुधनु-धृतिभवाः, ११ सुहोत्र-वंशः ... १६-२०

(क) कलियुगीयराज-वंशाः—१ पौरव-वंशः, २ इक्ष्वाकु-वंशः, ३ मर्हद्विष-वंशः,
 ४ प्रचोत-वंशः, ५ विशुनाग-वंशः, ६ मन्द-वंशः, ७ मौर्य-वंशः, ८ शुङ्ग-वंशः,
 ९ कण्व-वंशः, १० आन्ध्र-वंशः, ११ स्थानीय राजवंशाः, १२ वैदेशीय-राजवंशाः,
 १३ साइरुटतृतीयशताब्दीय राजवंशाः, १४ साइरुटचतुर्थशताब्दीय-राज-वंशाः, १५
 प्रमर-वंशः, चपहानि-वंशाः, क्षत्रियाः, १६ धर्मि-वंशाः, १७ शास्त्रिवाहन-वंशः,
 १८ भोजराज-वंशः, १९ तोमर-वंशः, २० शुङ्ग-वंशः, २१ पनिहर-वंशः, २२ गुलाम-
 वंशाः, २३ तैमूर-वंशः, २४ मुगल-वंशः, २५ गुरुखंड-वंशः, २६ मौन-वंशः, २७ नाग-
 वंशः, २८ राहु-वंशः, २९ विविध-वृषति-वंशाः, ३० कलियुगीय-राजवंशान्तर्गत-
 वृषति-चरितम्—उदयसिंह-जयचन्द्र-देवसिंह-शृङ्गिरीराज-प्रचोत-कल्पानि-ब्रह्मानन्द-
 महेश्वरि-भोजराज-महानन्दि-लक्ष्मण-विष्णु-चरितानि ... २१-२६

(घ) देव-वंशः—यक्ष-मन्थव-किन्नर-नाग गुणक-असुर राक्षस वंशाः देवयोग्य-
 त्पतिश्च, १ अधिपतिः, २ किरातः, ३ चित्रसेनः, ४ वैश्रवणः, ५ यक्षः २६-२७

(ङ) असुरराज-वंशः—दैत्य-दास्य राक्षस-वंशाः ... २७

(ज) वानर-वंशः—१ द्विविदः, २ नलः, ३ मैदः, ४ मुग्धीववालिनीधरितम्,
 ५ सुपेणः, ६ हनुमन्चरितम् ... २७-२८

पञ्चमं प्रकरणम्

जातयः—

१ उत्तरदेशीयाः, २ दक्षिणदेशीयाः, ३ पर्वतदेशीयाः, ४ पश्चिमदेशीयाः,
 ५ पूर्वदेशीयाः, ६ मध्यदेशीयाः, ७ विन्ध्यदेशीयाः ... २६-३०

षष्ठं प्रकरणम्

अध्यात्मप्रकरणम्—

१ आत्म-तत्त्वम्, २ कर्म-विपाकः, ३ मुक्तिः, ४ मृत्यु-बन्ध-तंत्राराः, ५ योग-
 ध्यानम्, ६ वेदान्तः ... ३१-३२

सप्तमं प्रकरणम्

स्मृतिः [धर्मशास्त्रम्]—

१ अनन्याय-उपाकर्मणी, २ आपद्धर्माः, ३ तीर्थमाहात्म्य-तीर्थयात्राः, ४ दानम्,
 ५ दण्ड-मुक्तिः, ६ वित्तकलः (आदम्), ७ पूजा-दीक्षा-सत्काराः, ८ प्रायश्चित्तानि,
 ९ भक्ष्याभक्ष्यम्, १० मनुष्य-लक्षणम्, ११ यातनास्थान-नरक-कर्मविपाकाः, १२ राज-
 धर्म-राजनीति-दण्डनीति-राजशासनानि, १३ वर्णाधर्मधर्माः, १४ मत-तिथि माहात्म्य-
 उत्सवाः, १५ शौचाशौचम्, १६ साधारण-धर्माः, १७ स्त्री धर्माः ३३-३७

अष्टमं प्रकरणम्

माधिदैविकम्—

देवतामाहात्म्य-अवतार-चरितानि ... ३८

नवमं प्रकरणम्

पृष्ठे

विधिघ-देव-देवांश-अवताराः—

(१) देवाः—इन्द्रः, कार्तिकेयः, मणपतिः, पौष्करः, प्रजा, रुद्रः, लिङ्गम्, विधिघदेवा, शिवः, सूर्यः	३६-४०
(२) देवांशाः—अर्जुनः, नारदः, मान्धाता, शङ्कराचार्यः	४०
(३) देवी—तुलसी, त्रिलोकिः, दुर्गा, धात्री, सावित्री	४१
(४) विष्णुः—शुभदेवः, कच्छपः, कपिलः, कल्किः, कूर्मः, कृष्णः, दत्तात्रेयः, धन्वन्तरिः, नर-नारायणौ, नरसिंहः, धरगुरांसः, पृथुः, बलरामः, बुद्धः, मलयः, मोहिनी, यज्ञः, रामः, बराहः, वामनः, व्यासः, हयग्रीवः	४१-४४

दशमं प्रकरणम्

अधि-यज्ञः—

१ अधिर्वंश-प्रवराः, २ मन्त्राऽरिष्ट-ग्रहशान्तयः, ३ यज्ञ-होम-वेदविधानानि, ४ वेदविभाग-शाखा-त्रयी-माहात्म्यानि	४५
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	----

एकादशं प्रकरणम्

अधि-विज्ञानम्—

१ अर्थ-शास्त्रम्, २ अलंकार-शास्त्रम्, ३ आदित्यव्यूह-माहात्म्य-पूजाः, ४ आयुर्वेदः, ५ कलाः, ६ कल्पः ७ काम-शास्त्रम्, ८ गान्धर्वम्, ९ छन्दः, १० ज्योतिषम्, ११ तन्त्रम्, १२ धनुर्वेदः, १३ निरुक्तम्, १४ नीति-शास्त्रम्, १५ पशु-चिकित्सा, १६ रत्न-परीक्षा, १७ लोकाः, १८ वनरूपति-शास्त्रम्, १९ वस्तु-सारासारः, २० वास्तु- विद्या-शिल्प-मूर्तयः, २१ विद्या, २२ विधिप्रन्थ-सारः, २३ व्याकरणम्, २४ शिक्षा, २५ सर्प-विद्या, २६ सामुद्रिकम्	४६-४८
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-------

द्वादशं प्रकरणम्

भू-धृतम्—

१ कुश-द्वीपः, २ कौश-द्वीपः, ३ गोमेदः, ४ जम्बू-द्वीपः, ५ नयः—शुद्ध-निः- सृताः, धारियाज-निःसृताः, मलय-निःसृताः, महेन्द्र-निःसृताः, विन्ध्यपाद-निःसृताः, शुक्तिमत्पाद-निःसृताः, सङ्घपाद-निःसृताः, हिमवत्पाद-निःसृताः, ६ पर्वत विभागः, ७ पुष्कर-द्वीपः, ८ पृथिवी-अटनम्, ९ पृथिवी आकारः, १० पृथिवी-परिमाणम्, ११ पृथिवी-विभागः, १२ पृथिवी-वैश्वानम्, १३ प्लक्ष-द्वीपः, १४ भारत-प्रस्थितिः, १५ भू-मण्डलम्, १६ लोकालोक-पर्वतः, १७ वृष्टिः, १८ शर-द्वीपः, १९ शाक- द्वीपः, २० शालमल-द्वीपः, २१ सप्त द्वीपाः, २२ समुद्र-वेला, २३ सूर्यावरोधात् हानिः	५०-५४
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-------

अकारादिक्रमेण विषय-शीर्षक-संकेताः

अमिमित्र २३

अमि-वश. २४

अङ्गलौकिका २६

अङ्ग-वश २४

अगा ३०

अजकः २२

अजनीड-वश २६,

अजनीड-मैतति २०^०

अजातशत्रु २२

अधिपति २६

अधि-वश ४५

अधि-विज्ञानम् ४६

अधिसीमकृष्ण २२

अनव्याय ३३

अनिभद्रा २६

अनु-वंश २५

अनूशः ३०

अनेनस्-वश २५

अन्तरिक्ष २२

अन्तर्भिरय. ३०

अन्त शिला ५६

अपक वंश २६

अन्धकाः ३०

अन्धक २३

अन्ध्राः २६

अपरान्ता २६, ३०

अभिमन्यु २२

अमावसु-वंश २५

अमृतजिह्व २२

अयुतायु २२

अरिष्ट ४५

अरिष्टवर्ण २६

अर्जुन ४०

अर्थ-शारदम् ४६

अर्जुदा. ३०

अलकार-तारुणम् ४६

अलूपा २६

अवगाना. २६

अवतार ३८

अवतारा ३६

अवन्तय ३०

अवन्ती ५१

अगोक २२

अरमका २६

अरथनेषदता २२

अमुर २६

अमुरदान-वश २७

आज्ञेया ३०

आटम्ब्या २६

आतेम-तत्त्वम् ३१

आदित्यव्यूह-माहात्म्यपूजा. ४६

आधिदैविकम् ३८

आनर्ता. ३०

आन्ध्र-वंश २३

आपद्धर्मा ३३

आरीलका २३

आनीरा २६

कारमीराः २६
 *किन्नर° २६
 किन्नराश्वः २१
 किरातः २६
 किराता. २६, ३०^१
 किष्किन्धाः ३०
 कुण्डिन्दाः २९
 कुनालः २२
 कुन्तयः ३०
 कुन्तलाः २३
 कुन्तलाः २६
 कुन्ती ५१
 कुमाराः २६
 कुमारी ५२
 कुमुदती ५१
 कुरवः ३०
 कुवग्धालाः ३०
 कुलकः २१
 कुलूनाः २६
 कुश्याः २६, ३०
 कुशाः ११
 कुश-द्वीपः ५०
 कुराभ्यज-वंशः ११
 कुट्टः ५२
 कुर्या ६२
 कूर्मः ५२
 कृतञ्जयः २१
 कृतमाला ५२
 *कृत्यसुमुद्देशादि ३
 कृष्णः २३, ५२
 कृष्णा ५२
 केरलाः २३
 कैकेयाः २६
 कोलपनाः ३०
 कोशलाः ३०^१

कौशिकी ५२
 कश्य-वंशः १६
 कमुः ५१
 काइस्टचतुर्थशताब्दीय-राज-
 वंशः २४
 काइस्टचतुर्थशताब्दीय-
 राज-वंशः २४
 किय्या ५१
 कोण्डु-वंशः १७
 कौशद्वीपः ५०
 क्षत्रवीधाः २६
 क्षत्रवृद्ध-वंशः १५
 क्षत्रियाः २४
 क्षत्रियाः २६
 क्षत्रौजाः २२
 क्षुद्रकः २१
 क्षुद्राः २६
 क्षेमः २१
 क्षेमकः २१
 क्षेमधर्मा २२
 खनाः ३०
 खजा ५२
 खणपतिः ३६
 खण्डकी ५२
 *खण्डर्व° २६
 खर्ग-वंशः १९
 खान्धर्वम् ५६
 खान्धाराराः २६
 खीला ५९
 खुरुवृद्ध-वंशः २५
 खुलाम-वंशः २५
 *खुलक° २६
 खोदावरो ५२
 खोनर्दाः ३०
 खोमती २२

गोमेदः ५-
 गौतमीयुग २३
 ग्रन्थसारः ४६
 *ग्रहसामन्तयः ४१
 घोषः २३
 गङ्कोरः २३
 गणदधीः २३
 गणदना ५१
 चन्द्रगुप्तः २२
 चन्द्रभागा ५२
 चण्डहानि-वंशाः २४
 चर्मखण्डिकाः २६
 चर्मज्वली ५१
 चित्रकूटा ५१
 चित्ररथः २१
 चित्रमेघः १६
 चित्रोत्पला ५१
 चीनाः २६
 चूलिकाः २६
 चोलाः २६
 चन्द्ररथः २६
 चैरीकाः २६
 छन्दः ४७, ४६
 जनमेजयः २१
 जटवृ-द्वीपः ५०
 जयचन्द्र-चरितम् २५
 जागुदाः २६
 जाह्नवाः ३०
 जातयः २६
 ज्योतिषम् ४७, ४६
 जगन्नाथः २६, ३०
 तन्त्रम् ४७
 तमसा ५१
 तापी ५१
 तामसाः ३०

ताम्रपर्णी ५१
 ताम्रलिप्तकाः ३०
 ताम्बीकटाः ३०
 तिग्मात्मा २१
 *तिथिमाहात्म्यं ३६
 तीर्थमाहात्म्यं ३३
 *तीर्थयात्राः ३३
 तुङ्गभद्रा ५२
 तुण्डिकेराः ३०
 तुम्बवनाः ३०
 तुम्बानाः ३०
 तुर्वष्टु-वंशः १५
 तुलसी ४१
 तुयाराः २६
 तुलीया ५२
 तैमूर-वंशः २५
 सोमर-वंशः २४
 सोमराः २६, ३०
 सोया ५१
 सोशलाः ३०
 *त्रयी ४५
 त्रिगर्ताः ३०
 त्रिदिवा ५१*
 त्रिनेत्रः २१
 त्रिशाकिः ४१
 त्रिनामा ५१
 त्रिपुराः ३०
 दक्षकन्या-संततिः ८
 दक्षप्राचेतस-चरितम् ६
 दक्षिणदेशीयाः २६
 दण्डकाः २६
 *द्वयद्वीपति ३५
 *द्वयद्वीपतिः ४६
 दण्डपाणिः २१
 दण्ड-वंशः १२
 दशाधियाः ४२

दरदाः २६	द्विविदः २७
दर्वाः २६	घनुर्वेदः ४७
दर्शकः २२	घन्वन्तरिः ४२
दशमानकाः २६	धर्मशास्त्रम् ३३
दशरथः २२	धर्मो २१
दशाणी ५१	धार्मो ४१
दशाणीः ३०	धूपापा ५२
दशोनः २२	धुष्ट-वशः १२
दशेरकाः २६	ध्रुवालयानम् ६
दानम् ३३	नद्यः ५१
°दानघ° २७	नन्द-वंशः २२
दावाः ३०	नन्दिवर्धनः २२*
दिवाकरः २१	नर° ४२
दिष्ट-वंशः १२	°नरक° १५
°दीक्षा° ३४	नर-वंश° १६
दुर्गा ४१, ५१	नरसिंहः ४३
दुर्गाः ३०	नरिष्यन्त-वंशः १३
दुर्बः २१	मर्मदा ५१
दृढसेनः २१	नलः ११ २७
दृषद्वती ५२	नलकाः २६
°देव° ३६	महुष-वंशः १६
देवनामाहात्म्य° ३८	°नाग° २६
देवधर्मा २२	नाग-वंशः २५
देवभूमिः २१	नाभाग-वंशः १३
देवयोग्युत्पत्तिः २६	नाभागारिष्ट-वंशः १३
देव-वंशः २६	नारदः ४०
देवसिंह-चरितम् २५	नारायण. २३
देवाशाः ४०	°नारायणो ४२
देवाः ३६	नासिक्याः ३०
देवाष्ट-वंशः १७	निग्र-वंशः १७
देविजा ५२	निचलुः २१
देवी ४१	निरामिन २१*
दैत्य° २७	निराहाराः ३०
द्रम्य शुद्धिः ३४	निरुक्तम् ४७
द्रुम-वंशः १६	निदिन्ध्या ५१
द्रुममीड-वंशः १६	निर्भूतिः २१

निश्चोरा ५२
 निपधाः ३०
 निपधावती ५१
 नीतिशास्त्रम् ४७
 नीप-वंशः २०
 नील-वंश २०
 नृग-वंशः १३
 नृवल्लुः २१
 नृपक्षयः २१
 ०नृपति-वंशाः २५
 नैमि-वंशः १२
 पद्मनक्षीराज-वंशः १५
 पटञ्जरा. ३०
 पटवः ३१
 पतिहर-वंशः २५
 पयोत्पत्नी ५१
 परशुराम ४३
 परिक्रमणः २३
 परिप्लव. २१
 परीक्षितः २१
 पर्याशा ५१
 पर्वतदेशीयाः ३०
 पर्वत-विभाग. २२
 पलाशिनी ५२
 पशु-चिकित्सा ४८
 पश्चिमदेशीयाः ३०
 पङ्कजाः २९
 पाण्ड्याः २३
 पात्रापात्र-विवेकः ३३
 पारदाः २९
 पारा ५१
 पारियात्र-नि.स्रताः (नद्यः) ५१
 पालकः २९
 पाम्शुपतः ३६
 पितृकल्पः ३४
 पिप्पलश्रीया ३१ -

पिशाचिका ११
 पुरञ्जनोपाख्यानम् ६
 पुराण-परम्परा ५
 पुराण-माहात्म्यम् ४
 पुराण-खण्डम् ३
 पुराण-विभागः ३
 पुराण-विषयाः ४
 पुराण-संख्या ४
 पुरु जनमेजय-वंशः २०
 पुरु-वंशः १६
 पुत्तिन्दकः २३
 पुलिन्दा. २९
 पुल्लेयाः ३०
 पुल्लोमा २३
 पुल्लोमाविः २३
 पुष्कर-द्वीपः ५२
 पुष्टि-चरितम् ९
 पुष्पजा ५१
 पुष्यमित्र २३
 पूजा ३४
 पूर्णसिद्धः २३
 पूर्वदेशीयाः ३०
 पृथिवी-अटनम् ५२
 पृथिवी-आकारः ५२
 पृथिवी-परिमाणम् ५५
 पृथिवीराज चरितम् २३
 पृथिवी-विभाग. ५३
 पृथिवी-संस्थानम् ५३
 प्रयुः ४३
 प्रधु-चरितम् ९
 प्रथिन-वंशः १८
 प्रथम-वंशः १३
 प्रौढः ३०
 प्रौरव-वंशः २३
 प्रौरिकाः २६

पीठरः ३९	वृहत्कर्मा २१
प्रचेतश्-चरितम् १०	वृहत्क्षत्र-वंशः २०
प्रतिष्योमा २१	वृहत्क्षयः २१
प्रतीताश्वः २१	वृहदशः २१
प्रयोगः २२	वृहदियु-वंशः २०
प्रयोग-चरितम् २'	वृहद्दलः ११५, २१
प्रद्योत-वंशः २२	वृहद्दाम्नः २१
प्रमर-वंशः २४२	वृहदयः २१, २२
प्रलयः ६	वृहस्पति-नीतिः ४९
•प्रवरा- ४६	वेण्वा ५२
प्रसुभृतः ११	वीयाः ३०
प्रमेनजित् २१	मद्या ३६
प्रथलाः २९	मद्गान्द-चरितम् ५२
प्रागु-वंशः १४	मद्गोतराः ३०
प्रागुज्योतिषः ३०	मक्षपाभक्षम् ३४
प्रायश्चित्तानि ३४	मजमान-वंशः १७
•प्राग्भ-प्रश्नः ३	मद्रकाराः ३०
प्रियमत-चरितम् १०	मद्राश्व-चरितम् १०
प्रियमत-वंशः ८	भरत-चरितम् १०
प्लव-द्वीपः ५३	भरद्वाजाः २९
•बन्ध" ३१	भरकन्ध्याः ३०
बन्धुपालितः २२	भर्तृहरि-चरितम् २५
बलसानि-चरितम् २५	भायवतः २३, ३६
बलरामः ४३	भानुरथः २१
बर्हिर्गिरयः ३०	भारत-प्रवृत्तिः ५३
बहुलाः २९	भार्यवाहिन्याः ३०
बार्हद्रथ-वंशः २१	भीमरथी ५२
बालिन् २७	मुलिन्नाः ३०
बालुवाहिनी ११	भू-मण्डलम् २३
बाल्हीकाः २९	भूमिमित्रः २३
बाहुदा ५२	भू-वृत्तम् ५०
बाद्या ५२	भोगवर्दनाः २९
विन्दुमारः २२	भोजराज-चरितम् २६
विदिमारः २२	भोजराज-वंशः २४
बुद्धः ४३	भोजाः ३०

मगधाः ३०^२
 मङ्गलाचरणं ३
 मञ्जुला ५१
 मत्स्यः ४३
 मत्स्याः ३०
 मद्रकाः २६
 मध्यदेशीयाः ३०
 मनुष्य-लक्षणम् ३५
 मन्दासक. २३
 मन्त्रं ४५
 मन्दगा ५२
 मन्दाहिनी ५२
 मन्दाकिनी ५१
 मन्वन्तराशि ७
 मरुदेवः २५
 मलयाः ३०^२
 मलय-नि स्रताः ५१
 मल्लाः ३०
 मल्लवर्तिकाः ३०
 मल्लाः ३०
 महागौरी ५१
 महानदी ५१
 महानन्दि-चरितम् २६
 महानन्दी २२
 महापथ २२
 महाभारतम् ४९
 महाभोज-वंशः १८
 महादण्डाः २९
 महावीर्य-वंशः २०
 मही ५१
 महीनेत्रः २१
 महेन्द्र-नि स्रताः ५१
 मान्धाता ४०
 मालवाः ३०
 माहिषकाः २६
 माहेयाः ३०

मुक्तिः ३१
 मुगल-वंशः २५
 मुद्गरवाः ३०
 मुरलाः ३०
 भूर्तयः ४८
 भूमिकाः २९
 भृगेन्द्रः २३
 भृत्युं ३१
 भेषस्वातिः २३
 भेषावी २१
 भेलकाः ३०
 भैदः २७
 मोहिनी ४४
 मौन-वंशः २५
 मौर्य-वंशः २२
 म्रीलिकाः २९
 यक्षं २६
 यक्षः २७
 यज्ञः ४४, ४५
 यज्ञधी २३
 यदु-वंशः १६
 यमुना ५२
 यवनाः २९
 याज्ञवल्क्य-स्तुतिः ४९
 यातनास्थानं ३५
 युग-धर्माः ५
 योग-ध्यानम् ३२
 रजि-वंशः १८
 रणञ्जयः २१
 रत्न-परीक्षा ४८
 रमठाः २९
 रमिनाः ३०
 रम्भ-वंशः १९
 "राक्षस-वंशः २६, २७
 राजधर्मं ३५
 "राजनीति" ३५
 "राजशासनानि ३५

वेदिशाः ३०
 वैदेशीय-राज-वंशाः २४
 वैन्यः ४३
 वैवस्वनमनुपुत्र-वंशः ११
 वंष्णवः ३६
 व्याकरणम् ४६
 व्यासः ४४
 मतः ३६
 वाकुली ५१
 वाङ्मय-वंशः ४०
 वातकाया ८
 वातदुः ५२
 शतद्रुमा २६
 वातिधन्वा २२
 वातशुद्ध-व्यवृत्तम् १०
 वातमीक २१
 वावराः २६
 वा-द्वीपः ५४
 वायोनि-वंशः १४
 वाल्वा ३०
 वाक-द्वीप ५४
 वाङ्मयः ३६
 वाक्यः २६
 वाप्या ४५
 वातकर्षी २३
 वालिवाहन-वंशः २
 वालिशूकः २२
 वाग्मल-द्वीपः ५४
 वाङ्मय ४६
 वागिवाहुः ५१
 वागि-वंशः १८
 वाप्या ५१
 वागि ४८
 वावः ४०
 वावधीः २३
 वावस्कन्धः २३
 वावस्वानिः २३

दिशुनागः २२
 दिशुनाग-वंशः २२
 शुक्तिमती ५१
 शुक्तिमत्पाद-निःसृताः ५२
 शुक्र-वंशः २४
 शुक्ल-वंशः २३
 शुनिः २१
 शुनिद्रयः २१
 शुद्धोदनः २१
 शुनी ५१
 शूद्रः २६
 शूद्रपरकाः ३०
 शूद्रसेनाः ३०
 शूद्रः ३६
 शोणः ५१
 शौचाशीचम् ३६
 शूद्रम् ३४
 शीविजयाः ३०
 शीशातकर्णः २३
 शूत्रधन्वाः २२
 शूत्रायुः ११
 श्रुतिः ४५
 श्रुतिधन्वा २०
 श्रुतुजयः २२
 शस्याराः ३६
 शस्यकाराः ३४
 शशयः २१
 शस्यजित् २२
 शरानीग ५१
 शय द्वीपः ५४
 शयुद्र-वेला ५४
 शम्प्रति २२
 शयू ५२
 शयस्वती ५२
 शयविका ४६
 शहदेवः २१, २२

सहस्राद-निःसृताः ५२	सुपेणः २१, २८
साधारण-धर्माः ३६	सुहोत्र-वराः २०
सामुद्रिकम् ४६	सूत-धर्माः ५
सारस्वताः ३०	सूर्यः ४०
सावित्री ४१	सूर्य-वंशः ११
सिन्धुः २६	सूर्यावरोधात् शानिः ५४
सिन्धुः ५१, ५२	सृष्टिः ५
सिद्धार्थः २१	सेतुकाः २६
सिमुक्कः २३	सेनजित् २२
सुकल्पः २२	सोम-वंशः १४
सुक्ष्मः २२	सोमाधिः २२
सुखीबलः २१	सौरः ३६
सुधीव २७	सौवीराः २९
सुचलः २२	स्कन्दस्वतिः २३
सुदर्शन-वंशः १२	स्कन्धस्तम्भिः २३
सुगुप्त-वंशः १४	स्त्री-धर्माः ३७
सुधनु २०	स्थानीय-राज-वंशः १४
सुनक्षत्रः २१	रमृतिः ३३
सुनयः २१	स्वातिः २३
सुनीषः २१	स्वानिषर्षः १३
सुनेत्रः २२	स्वायंभुवमनु-परितम् १०
सुन्दरः २३	स्वायंभुवमनुवंशः ८
सुपर्णः २१	स्वायंभुवमनुवंश-राज-चरितम् ९
सुप्रतीकः २१	हंसमार्गाः २६, ३०
सुप्रयोग ५२	हनुमच्चरितम् २८
सुमतिः २२	हयग्रीवः ४४
सुमित्रः २१	हरिवंशः ४६
सुयज्ञ-चरितम् १०	हारदूख ऋः २६
सुरयः ११, २१	हालः २३
सुरसा ५१	हिमवत्पाद-निःसृताः ५१
सुराष्ट्राः ३०	हृष्याः २९, ३०
सुवटः २२	हृष्टुक्काः ३०
सुधर्मा २३	हेहय-वंशः १८
सुशील-चरितम् १०	होम ४५
सुधर्मः २२	

मूलग्रन्थ-नाम-संक्षेपाः

(इह पत्रयत्र संस्करणद्वयमुपयुक्तं तत्रतत्र तत्र क, ख इत्येवं विभज्य निर्दिष्टं द्रष्टव्यम्)

अग्नि	= अग्नि-पुराण-	(क) आनन्दाश्रम-ग्रन्थावलि, पूना (ख) सरस्वती प्रेस, कलकता	सन् १९०० सन् १८८२
भूमि	= भूमि-पुराण-	(क) वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई (ख) विप्लिमोपेका इण्टिका, कलकता	सं. १९६२ सन् १८८६
गण्ड	= गण्ड-महापुराण-	वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६३
देवी-भाग	देवीभागवत-महापुराण-	(क) वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई (ख) गणपतरुपण्णामो प्रेस, बम्बई	सं. १९७५
नारद	= नारदीय-पुराण-	वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६२
पद्म	= पद्म-पुराण-	आनन्दाश्रम-ग्रन्थावलि, पूना	सन् १८९४
ब्रह्म	= ब्रह्म-पुराण-	(क) वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई (ख) आनन्दाश्रम-ग्रन्थावलि, पूना	सं. १९६३ सन् १८९५
ब्रह्म-धै	= ब्रह्मधैर्यं पुराण-	(क) वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई (ख) सरस्वती प्रेस, कलकता	सं. १९६६ सन् १८८८
ब्रह्माण्ड	= ब्रह्माण्ड महापुराण-	वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६३, १९६९
भविष्य	= भविष्य-पुराण-	वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६७
भाग	= श्रीमद्भागवत-पुराण-	(क) हितचिन्तक प्रेस, काशी (ख) वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९५७
मत्स्य	= मत्स्य-पुराण-	(क) वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई (ख) आनन्दाश्रम-ग्रन्थावलि, पूना	सं. १९८० सन् १९०७
महा	= महाभारत-	(क) निरुपमसागर प्रेस, बम्बई (ख) योषासनारायण प्रेस, बम्बई	सं. १९०७ सन् १९१३
मार्क	= मार्कण्डेय-पुराण-	वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९४६
रामा	= रामायण-	निरुपमसागर प्रेस, बम्बई	सन् १८८८
लिङ्ग	= लिङ्ग-महा-पुराण-	(क) वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई (ख) नूतनवाग्मीकि प्रेस, कलकता	सं. १९६३ सन् १८८५

घराह	=	घराह-पुराण-	वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९८०
घामन	=	घामन-पुराण-	(क) वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई (ख) जगद्वितेन्दु प्रेस,	सं. १९६० सक. १८०८
घायु	=	घायु-पुराण-	वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९५२
घिरणु	=	घिरणु-पुराण-	गीता प्रेस, भोरखपुर	सं. १९९०
शिव	=	शिव-पुराण-	शुभराती मुद्रण लय, बम्बई	सं. १९५७
शिव-महा	=	शिव-महा-पुराण-	वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६३
स्कन्द	=	स्कन्द-पुराण-	वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६५
हरि	=	हरिवंशः	(क) वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई (ख) मन्मथनाथदास-कृत व्याख्यानवाचः, इत्यसिद्धम प्रेस, फलकता	सं. १९७२ सन् १८९७

स्थलाङ्क-निर्देश-संकेताः

प्रथमः स्थूलः स्थलाङ्को मूलग्रन्थानाम् श्रेण-भाग-स्कन्ध-संहिता पर्य-काण्डाद्देमुंख्य-विभागस्य, द्वितीयः स्थलाङ्कोऽध्यायादेरवान्तरविभागस्य, तृतीयः [] इत्याकारे षण्डक-कोष्ठेऽन्तर्निर्दिष्टः स्थलाङ्कः काचित्कस्य सतः श्रेणदेस्ततोऽप्यवान्तरविभागस्य, चतुर्थस्य () इत्याकारेऽर्धचन्द्रककोष्ठेऽन्तर्निर्दिष्टः स्थलाङ्कः श्लोकस्य संख्यासूचकः प्रथमः ।

पुराण-विषय-समनुक्रमणिका

अथर्ववेदः

उपोद्धातः

१ मङ्गलाचरण-प्रारम्भप्रश्न-कृत्यसमुद्देशादि

अग्नि १	मत्स्य १, १
कूर्म १, १ (२-६)	मार्क १, (१-१०)
गरुड १, १-२	लिङ्ग १, १
देवी-भाग १, १	वराह १
नारद १, १-२	वामन १
पद्म १, १, २, १, ३६; ६, १	वायु १, १ (१०-२५; ४१); २
ब्रह्म १	विष्णु १, १ (१-११)
ब्रह्म-वै १, १	शिव १
ब्रह्माण्ड १, १ (१६-२६); २	शिव-महा १ [१], १; २ [१], १
भाग १, १ (५-२३); ४ (१-१३); ७ (१-११); २, ४ (५-१०), ३, १ (१-७)	स्कन्द १ [१], १
भविष्य १, १	हरि १
	रामा १, १-४; महा १, १-२

२ पुराण-लक्षणम्

कूर्म १, १, (१०)	वराह २
ब्रह्माण्ड १, १ (२७-८); ३, ४ (५४)	वायु १, १ (१८२); ४ (१०); २, ४ (५५); ४१ (१-२२)
भाग २, १० (१-७); १२, ७	विष्णु ३, ६ (१५; २५)
मत्स्य ५३	शिव-महा ७ [१], १
मार्क १३४ (१६)	
ब्रह्म-वै ४, १२.	

महा १, २३

३ पुराण-विभागः

अग्नि ३८३	ब्रह्म वै ४, १२३
गरुड ३, १	भविष्य १, १
देवी-भाग १, २	भाग १२, ७
नारद १, १२-१०६	स्कन्द ५ [१], १; ७ [१], २

४ पुराण-संख्या

कूर्म १, १ (१३-२२)	मविष्य १, १
देवी-भाग १, ३	मत्स्य ५३
नारद १, १, १०६	मार्क १३४ (८-१२)
पद्म ४, १००; ११०-११	वायु १, ३२ (६८-६५); २, ५२ (१-११)
ब्रह्म-वै ४, १३३	विष्णु ३, ६ (१५-२४)
भाग १२, १३	शिव-महा ७ [१], १

महा १२, १२२

५ पुराण-विषयाः

अग्नि ३८३	मत्स्य २६०
कूर्म १, १ (६८-१००); २, ५४	लिङ्ग १, २
देवी-भाग १, १-२	घराह २१८
नारद १, १०८; ६२-१०६	धामन १
पद्म १, १; ५, १-२; ६, १	वायु १, १ (५२-१०८); ३ (१०-११);
ब्रह्म वै ४, १३२	५ (११-४); २, ५१ (५५-५)
ब्रह्माण्ड १, १ (३६-१००)-२	विष्णु १, १ (५-११); ३, ६ (२६-७)
भाग १२, १२	६, ८ (१२-२७)
मविष्य १, १	हरि ३, १३४

रामा १, ३; महा १, १-२; ५२

६ पुराण-माहात्म्यम्

अग्नि २७२, ३८३	मत्स्य २६१
कूर्म २, ५६	मार्क १३४
शद्वह १, १; २४०; २, ५६	लिङ्ग २, ५५
देवी भाग १, १; १२, १५	घराह ११२; २१७-८
नारद १, १; १२५; २, ८२	धामन ६४
पद्म १, ६१-२; २, १२५; ३, २५; २६;	वायु १, १ (५०-४१); २ (१५-४१)
४, १०१; ११०; ५, ८२; ६, २६	२, ५१ (५८-६७)
ब्रह्म १३८	विष्णु ६, ८
ब्रह्म वै ४, १३३	शिव-महा १, २(८-६); ३, ६ (१५-६);
ब्रह्माण्ड १, १ (८-१५); ७, ५ (५८-६७)	६, ८ (५१-५१); ७ [२], ५१
मविष्य १, १ (१-११); २, १ (८-६);	स्कन्द ७ [१], ५४
३, ८ (२-६); ४, १०१	हरि ३, १३५
भाग १२, १३	

रामा १, १ (६८-१००); ७, १११; महा १, १-२; ६२; १८, ५

सृष्टिप्रलयादि

७ पुराण-परम्परा

विष्णु ६, ४

गरुड १, २

ब्रह्माण्ड ३, ४

महा १, १२१; १२४

८ सूत-धर्माः

पद्म ४, १००; ५, १

ब्रह्माण्ड १, १ (१५-२३)

भाग १, १ (५-६); २, (१); ४, (१३)

मार्क ६

यायु १, १ (१३-३३);

विष्णु २, ६ (१५-६)

महा १, १

द्वितीयं अकरणम्

सृष्टिप्रलयादि

१ सृष्टिः

अग्नि १७

कूर्म १, १-१०; २, ८; ४ ५

गरुड १, ४-६; ३, १-१३

देवी-भाग ६, १-३; ३, ७

नारद १, ४२

पद्म १, २; ७; ३६-७; २, २२; ५, २; ६;

२५६-२५७

ब्रह्म १

ब्रह्म-धै १, ३-४; ६-८; २, १-३; ८-९

(बसुधाख्यानाम्)

ब्रह्माण्ड १, ३-५; ७, ४

भाग ३, ५-१०; १३

मविष्य १, २; २ [१], २

मत्स्य २-८; १६६-१७७

रामा २, ४३; ३, १४

महा १, ४२; २, ४३; ६, ६५-७; १०, १७-८; १२, १६४; १८२-८;

२०७; २१२; २३१; २३८; २४२; २६१-४; २८१; ३११; ३१५-६;
३३, ३६; १६५; १६८; २४५;

मार्क ४२-४

लिङ्ग १, ३; ३८, ७०

घराह २; ६; १८; २६

वामन ध्वे

वायु १, १; ३-६, ६-१०; १४; २४; २, ४१

विष्णु १, २-६

शिव ५; ४७

शिव-महा २ [१], १५-६; ५, २५; ६,

१५-७; ७ [१], ६-१७

स्कन्द १ [२], ३७; २ [१], १५; ५ [३],

१२२; ६, २३६; ७ [१], १६; ७ [२],

१८

हरि १, १

२ प्रलयः

अग्नि ३६८	मार्क ४२-४
गरुड १, २२४	वामन २
नारद १, ५	वायु २, ३८
पद्म ३, २६; ५, २६	विष्णु ४, ४-५
ब्रह्म ५, १२२; १२५	शिव-महा २ [१], ६
भाग ५, २५; १२, ४	स्कन्द २ [१], ३२; ५ [३], ५-२०
मत्स्य २; १६५	

महा ३, ८८-९०; ५, १०; १२, २१२; २२६; २७४; ३२७; १३, १६

३. विसर्गः

अग्नि १६-२०	मत्स्य ६-८
कूर्म १, ११-१३; १८; २, ४५	मार्क ४५-६; १०१
गरुड १, ५	लिङ्ग १, ७०
देवी भाग ६, १	वराह २; २४; ३०; ३२; ३५
नारद १, ३	वामन ७१-७२
पद्म १, ३; ६-७; २, ५-२५; ५, ३; ७	वायु १, ३; ८-१०; ६१; २, ३-६
ब्रह्म १-३	विष्णु १, ७-१०
ब्रह्माण्ड १, ८-११; २, १-४	शिव ६; ४७
ब्रह्म वै १, ८-१०	शिव-महा ५, ३१-३; ७ [१], १६-७
भाग २, १-८; ६, ४-१६	स्कन्द ५ [३], १२२; ७ [१], १६
मविष्णु १, २; २ [१], २	हरि १, २-३

रामा १, ५५-६; ३, १४; ४, ५६-६४; ७, १-३४;
महा० १, ४-१२; ६६; ६, ५०; ७, ५-६; १२, १६४; २०६-७

तृतीयं प्रकरणम्

कालमानादि

१. कालमानम्

अग्नि १२२	भाग ३, ११
कूर्म १, ५	मार्क ४३
पद्म ५, ३	मत्स्य १४२
ब्रह्म-वै १, ५; २, ७	लिङ्ग १, ४

वायु १, २१; ५७
विष्णु १, ३
शिव-महा ७ [१], ८

स्कन्द ५ [१], ५८; ५ [२], २७२; ६, २७;
७ [१], १८; ७ [१], १०
हरि १, ८; ३, ४-५
महा १, १; २७३; ३, १८८-९०; ४, ५२; ५, १०; १२, २४ बाल-
महिमा; २८; २३७; २३६; २३१; २३८; २६४; १३, १

२. कल्प

नारद १, ५१
ब्रह्म १२४
ब्रह्माण्ड १, ६
ब्रह्म-वि १, ५

वायु १, ७; २१-२
शिव-महा ७ [१], ११
मत्स्य ६८६

३. मन्वन्तराणि

अग्नि १५०
भूमि १, ५१
गरुड १, ८७-९०
देवी-भाग १०, १-११
नारद १, ४०
पद्म ५, ७
ब्रह्म ३
ब्रह्माण्ड १, ६; ३१-८; ३, १

ब्रह्म-वि २, ६३
भाग ८, १-२४
भार्गव ५०-६७
मत्स्य ६, ११३; १४४
विष्णु ३, १-२
वायु १, २१-६१; २, ३८
शिव-महा ७ [१], ११; ५, १४
हरि १, ६-८

४. युग-परमां:

भूमि १, २६-३०
गरुड १, २२३
देवी भाग ६, ११
नारद १, ४१
पद्म ४, ११०; ५, ३६; ६२६; ६, १८६
ब्रह्म १२२-३
ब्रह्म-वि ४ [२], ६०
ब्रह्माण्ड १, ७; २६-२९
मत्स्य १ [१]

भाग १२, १
मत्स्य १४१-३; १६४
सिद्ध १, ४०-१
वराह ७०-१
वायु १, ८; १२; ५७-८; २, १७
विष्णु ६, १-१
स्कन्द १ [२], ४०
हरि १, ८; ३, १-७

बामा ७, ७१

महा ३, १५१; १६१-४; ५, १०; १०, २११; ३१८; ३१९

चतुर्थं प्रकरणम् वंश-वंशानुचरितम्

(क) स्वायंभुवमनुवंशः

१. स्वायंभुवमनोः शतकल्पायाश्चोत्पत्तिः संततिश्च

कूर्म १, ८ (१-३०); १४	मार्क ७७ (६-१६)
गरुड १, ५ (२१-४)	लिङ्ग १, ७० (२६७-३००)
देवी-भाग ८, ३	घराह २ (२०; ५५-८३); ४ (१-११)
ब्रह्म १, (५२-६१)	वायु १, १० (७-२३)
ब्रह्म-वै १, ६ (१-६)	विष्णु १, ७ (१७-३८)
ब्रह्माण्ड १, ९ (१४-५)	शिव-महा ७ [१], १७
भाग ३, १२; १३ (१-१४); २०-३३	हरि १, १ (४२-६); २ (१-५)
मत्स्य ३	

२. उत्तानपाद-वंशः

अग्नि १८ (१-२८)	मत्स्य ४
कूर्म १, १४	वामन ७७
गरुड १, ६	वायु २, १ (७२-६०); २
ब्रह्म १, (६२-११०)	विष्णु १, ११-६
ब्रह्म-वै २, ५०	शिव-महा ५, ३०
ब्रह्माण्ड १, ३६ (८४-२२७)	हरि १, २ (७-२७)
भाग ४, १, ८-३१	

३. प्रियव्रत-वंशः

अग्नि १०७	मार्क ५०
कूर्म १, ४०	लिङ्ग १, ४६-७
गरुड १, ५४	वायु १, ३३
देवी-भाग ८, ४	विष्णु २, १ (११-६); ३, १ (२४-५)
ब्रह्माण्ड १, १४	स्कन्द १ [२], ३७ (४५-५८)
भाग ५, १-१५	

४. दक्षकन्या-संततिः

अग्नि १८ (१६-४५)	देवी-भाग ८, १
कूर्म १, १३, १५-८	ब्रह्म १, (११०-२३८)
गरुड १, ३ (२४-३८)	- ब्रह्म-वै १, ६ (७-१३)

ब्रह्माण्ड १, १ (४६-११); २, २	लिङ्ग १, ६३
भाग ३, १२ (४९-४६); १३ (१-१४); १४-१; ४, ३०, १; ६, १; ६	वायु २, २
मत्स्य ५	विष्णु १, ७; १५ (७५-१३६)
मार्क ४७ (२०-६०), ४८; ४९	शिव-महा २ [२], १४; ५, २१
	हरि १, ३

५. स्वायंभुवमनुवंशराज-चरितम्

(१) उत्तम-चरितम्

मार्क ६६-६

(२) श्रृपम-चरितम्

स्कन्द ३ [१], १०-४

(३) कापिलयोगस्थानम्

भाग ३, २०-३३

महा १२, २७४-६; ३, १०६; २२३; ५, १०९

(४) दक्षप्रचेतस-चरितम्

अग्नि १८

वायु २, २ (४६-५६)

कूर्म १, १४ (५५-६५); १५

भाग ४, ३; ६, ४०

ब्रह्म २

विष्णु १, १४

ब्रह्माण्ड १, १३ (४२-८७)

महा १, ६९; १२, २६०

(५) प्रयाग-स्थानम्

ब्रह्माण्ड १, ३६ (८९-९५)

विष्णु १, ११. १२

भाग ४, ८-१३

स्कन्द ४ [१], १९-२१; ७ [१], १३

वायु २, १ (७५-८१)

(६) पुरज्जिनोपास्थानम्

भाग ४, २५-९

(७) मुष्टि-चरितम्

वायु २, १ (८२-४)

(८) पृथु-चरितम्

अग्नि १८

ब्रह्माण्ड १, ३६ (८९-९५)

पद्म ५, ८ (१-३४), २, २६-८; १२४;

भाग ४, १५-२४

१२५

मत्स्य १०

ब्रह्म २

वायु २, १ (१४-११६); २ (१-११)

वंश-वंशानुचरितम्

(ख) सूर्य-वंशः
वैवस्वतमनुपुत्र-वंशः
१ इक्ष्वाकु-वंशः

[i] कुशः

अग्नि २७३ (३६-६)
कूर्म (भुतायुः) १, २२ (५५-६०)
गरुड (प्रसुभुतः) १, १३८ (३९-४६)
पद्म (भुतायुः) ५, ८ (१५६-६०)
ब्रह्म (नलः) ६ (५७-६२)
ब्रह्माण्ड (बृहदलः) २, ६३ (१८५-
२१६)
भविष्य (सुरथः) ३, २ (८-४०)

भाग (बृहदलः) ६, १२ (१-६)
मत्स्य (भुतायुः) १२ (५१-७)
लिङ्ग (बृहदलः) १, ६६ (१-३; ३८-
४१)
वायु (बृहदलः) २, २६ (११८-२१४)
शिव-महा " ५, ३६ (१६-३१);
५, २६ (११८-२१४)
हरि १, १५ (२-३८)

[ii] बृहदलः

गरुड १, १४१ (५-८)
ब्रह्माण्ड २, ७४ (१०३-६)
भाग ६, १२ (६-१६)
मत्स्य २७१ (१-१७)

वायु २, ३७ (२७६-८८)
विष्णु ४, २२
शिव-महा ५, ३६ (१२-४६)

[iii] रामः

अग्नि २७३ (१८-१५)
कूर्म १, २० (१०-७६); २१ (१-५५)
गरुड १, १३८ (१६-३६)
देवी-भाग ७, ९-२७
नारद १, ७-१६
पद्म ५, ८ (११०-५५)
ब्रह्म ५ (४४-१०९); ६ (१-८७)
ब्रह्माण्ड २, ४७-१६; २, ६३ (८-
१८४)

भविष्य ३, १; २ (१-७)
भाग ६, ६-११
मत्स्य १२ (१५-५१)
लिङ्ग १, ६४ (३१-१७५); ६६ (१-३७)
वायु २, २६ (८-११७)
विष्णु ४, २-४
शिव-महा ५, ३७; ३८; ३९ (१-१८)
हरि १, ११ (१२-५७), १२-४; १५
(१-२६)

रामा १, ७०; २, ११०
महा ३, २०५; १३, २, १४, ४

२ इक्ष्वाकुपुत्र-वंशः

[i] कुशध्वज-वंशः

वायु २, २७ (१६-२७)

विष्णु ४, ५
रामा १, ७१; ७, १७; ५५

[ii] दत्त-वंशः

वामन ६३-६
वायु २, २६ (८-१०)

विष्णु ४, २ (१२-४)

रामा ७, ७६-८१

[iii] मेघि-वंशः

गरुड १, ११८ (४६-६०)
ब्रह्माण्ड २, १४

भाग ६, ११
वायु २, २६ (८-१०); २० (१-१८)

रामा ७, १७; १८; ५५-७

[iv] विजुलि यशः

वायु २, २६

[v] मुदरुंन वंशः

महा १३, २

३ कल्प-वंशः

अग्नि २, ७३ (१७)
गरुड १, ११८ (२)
पद्म ५, ८ (१२६)
ब्रह्म ५ (२५; ४२)
ब्रह्माण्ड २, ११ (१)
भाग ६, १ (१६)
मत्स्य १२ (२४)

मार्क. ११०, (१)
लिङ्ग १, १६ (२१)
वायु २, २८ (२)
विष्णु ४, १ (१८)
शिव महा ५, १६ (४६)
दत्ति १, १० (१६); ११ (६)

४ कवि-वंशः

भाग ६, १ (१७)

शिव-महा २, १६ (६१)

५ द्विष्ट-वंशः

गरुड १, ११८ (६-१४)
ब्रह्माण्ड २, १ (१-१८)
भाग ६, २ (१७-१६)
मार्क. ११०, (१०)

लिङ्ग १, १६ (२१)
विष्णु ४, १ (१८-१९)
शिव महा ५, १६ (४६)

रामा १, -७; ५८

६ शूद्र-वंशः

अग्नि २, ७३ (११)
गरुड १, ११८ (१६)

देवी भाग ७, ० (११)
पद्म ५, ८ (१२६)

ब्रह्म ५, (२५)	वायु २, २४ (४; १)
ब्रह्माण्ड २, ६३ (४)	विष्णु ४, २ (४)
भाग ६, १ (१७)	शिव-महा ५, ३६ (४६)
लिङ्ग १, ६६ (४६)	हरि १, १०; (२१)

७ नरिष्यन्त-वंशः

अग्नि २७३ (१०)	मार्क १२६-३३
पद्म ५, = (१२५)	लिङ्ग १, ६६ (४६)
ब्रह्म ५ (२४; २७)	शिव-महा ५, ३६ (२२; २३)
भाग ६, १ (११-१२)	हरि १, १० (२८; ३२)
मत्स्य १२ (१०)	

८ नामाग-वंशः

अग्नि २७३ (१०; १७)	मत्स्य १२ (२०-१)
गरुड १, १२८ (१५)	लिङ्ग १, ६६ (५०)
देवी-भाग ७, २ (२२)	वायु २, २४ (५-७)
पद्म ५, ८ (१२५)	विष्णु ४, २ (४-१०)
ब्रह्म ५ (१५)	शिव-महा ५, ३६ (२२; २३)
ब्रह्माण्ड २, ६३ (५-७)	हरि १, १० (२८)
भाग ६, ४; ५; ६ (१-३)	

९ नाभागादि-वंशः

ब्रह्म ५ (४२)	हरि १, १० (३०); ११ (६)
वायु २, २८ (१-२२)	

१० नृग-वंशः

भाग ६, २ (१७-८)	वराह ४७
लिङ्ग १, ६६ (४६)	शिव-महा ५, ३६ (१०-२)

रामा ७, ५२; ५४

११ पुत्र-वंशः

अग्नि २७३ (१८)	भाग ६, २ (१-१५)
गरुड १, १३८ (१)	मत्स्य १२ (२४)
पद्म ५, ८ (१२०)	मार्क १०६
ब्रह्म ५, ४३	लिङ्ग १, ६६ (२२)
ब्रह्माण्ड २, ६३ (१)	वायु २, २४ (१)

विष्णु ४, १ (१७)

हरि १, ११ (१०)

शिव-महा ५, ३६ (५३-६०)

१२ प्राशु-वंशः

ब्रह्म ५, २६

हरि १, १० (३१); ११ (१०)

१३ शर्मति-वंशः

अग्नि २७३ (११-९)

मत्स्य १२ (२१-४)

गण्ड १, १३८ (१५; १६)

मार्क १२९-३३

वेदी-भाग ७, २ (२४-६५)

लिङ्ग १, ६६ (४७-९)

पद्म ५, ८ (१२६-९)

घायु २, २४ (२३-३३); २५ (१-४)

ब्रह्म ५ (२७-४१)

विष्णु ४, १ (६२-९६)

ब्रह्माण्ड २, ६१ (१९-२६); ६३ (१-४)

शिव-महा ५, ३६ (२१-४७)

भाग ६, ३

हरि १, १० (३१-८); ११ (१-८)

१४ सुद्युम्न-वंशः

अग्नि २७३ (७-९)

मार्क १०८

... भाग १, १२

लिङ्ग १, ६५ (१९-३०)

५, = (२२१)

विष्णु ४, १ (८-१९)

५ (१-२३)

शिव-महा ५, ३६ (१-१९)

६, १

हरि १, १० (१-२८)

मत्स्य ११; १२ (१-२६)

रामा ७, ८९; ९०

(ग) सोम-वंशः

१ अंग-वंशः

... १, १३९ (७१-८)

मत्स्य ४८ (२२-१०८)

११, (२७-४९)

घायु २, ३७ (२४-११५)

८० २, ७४ (२४-१०३)

विष्णु ४, १८ (११-३०)

२३ (४-१४)

हरि १, ३१ (३१-६०)

महा १, ११३

वंश-वंशानुचरितम्

२ अनु-वंशः (पंचनदीयराज-वंशः) ✓

गरुड १, १३६ (६८-७०)
ब्रह्म ११, (१४-२६)
ब्रह्माण्ड २, ७४ (१२-२३)
भाग २३, (१-३)

मत्स्य ४८, (१०-२१)
वायु २, ३७ (१२-२४)
विष्णु ४, १८ (१-१०)
हरि १, ३१ (१८-३०)

३ अनेनसू-वंशः

गरुड १, १३६ (१६-८)
ब्रह्म ६, (२७-६१)
ब्रह्माण्ड २, ६८ (७-११)
भाग ६, १८ (११-२; १५-८)

वायु १, ३१ (१-११)
विष्णु ४, ६ (२४-८)
हरि १, २६ (१-५)

४ अमावसु-वंशः

गरुड १, १३६ (१-८)
ब्रह्म ४
ब्रह्माण्ड २, ६६ (२४-६०)
भाग ६, १५; १६

वायु २, २६ (४६-११४)
विष्णु ४, ६; ७
हरि १, २७; ३२ (४६-६२)

महा १, १६१; १३, ४
रामा १, ३२-४; ५१ (१८-२८)

५ क्षत्रवृद्ध-वंशः

गरुड १, १३६ (६-१५)
ब्रह्म ६, (११-६१)
ब्रह्माण्ड २, ६७ (२-७६)
भाग ६, १८ (१-११; १५-८)

वायु २, ३० (२-१६)
विष्णु ४, ८
हरि १, २६ (८-८३)

महा १३. ५

६ तुर्वसु-वंशः ✓

अग्नि २७७ (१-३)
गरुड १, १३६ (६५)
ब्रह्म ११, (१४२-७)
ब्रह्माण्ड २, ७४ (१-६)
भाग ६, २३ (१६-८)

मत्स्य ४८, (१-५)
वायु २, ३७ (१-६)
विष्णु ४, १६
हरि १, ३२ (११६-२३)

७ द्रुमु-वंशः ✓

अग्नि २७३, (४-१७)
 गरुड १, १३६ (६६-७)
 ब्रह्म ११ (१४८-४९)
 ब्रह्माण्ड २, ७४ (७-११)
 भाग ३, २३ (१५-६)

मत्स्य ४८, (६-६)
 वायु २, ३७ (७-१२)
 विष्णु ४, १७
 हरि १, ३२ (१२४-६)

महा १, १३

८ नहुप-वंशः

अग्नि २७४ (२०-३)
 गरुड , १३६ (१६)
 ब्रह्म १०
 ब्रह्माण्ड २, ६८

मत्स्य २४ (४६-५४)
 वायु २, ३९
 विष्णु ४, १०
 हरि १, ३०

सामा ७, ५८; ५६

९ यदु-वंशः ✓

[i] बहुर-वंशः (संघट्ट पशः)

अग्नि २७५, (२७-३३)
 कूर्म २४, (४७-६१)
 गरुड १, १३६ (४५-५०)
 पद्म ५, १३ (४६-६२)
 ब्रह्म १३, (४६-६१)
 ब्रह्माण्ड २, ७१ (१३६-३६)

भाग ६, २४ (१६-६७)
 मत्स्य ४४, (६१-८५)
 लिङ्ग १, ६६ (१२-४६)
 वायु २, ३४ (११५-३१)
 विष्णु ४, १४ (१२-२१)
 हरि १, ३७ (१८-३३)

महा १, १४२; २०२; २२६

[ii] वप-वंशः

अग्नि २७५ (१८-२३)
 कूर्म १, २४ (६-३४)
 गरुड १, १३६ (३०-७)
 पद्म ५, १३ (७२-३०)
 ब्रह्म १३ (१२-२६)
 ब्रह्माण्ड २, ७० (१७-४६)
 अविष्णु ३ [१], २ (४७-७२); ३ [१], ३

(१-३२)
 भाग ६, २१ (१-७)
 मत्स्य ४४, (३८-४६)
 लिङ्ग १, ६८ (४१-५१)
 वायु ७, ३३ (३६-४८)
 विष्णु ४, १३ (२१-३०)
 हरि १, ३६ (१६-३६)

महा १, १८

[iii] श्लोचु-वंशः

अग्नि २७५, (१२-७)	भाग ६, २३ (१-६)
कूर्म १, २४ (१-५)	मत्स्य ४४ (१४-३८)
गरुड १, १३६ (२६-६)	लिङ्ग १, ६८ (१२-४०)
पद्म ५, १३ (१-२१)	वायु २, ३३ (१४-३८)
ब्रह्म १३ (१-२१)	विष्णु ५, १३ (१-२१)
ब्रह्माण्ड २, ७० (१४-३६)	हरि १, ३६ (१-१५)
मविष्य ३ [१], २ (५०-६)	

[iv] देवाहप-वंशः

अग्नि २७५, (२५-७)	भाग ६, २३ (६-११)
कूर्म २४, (३४-६)	मत्स्य ४४, (५१-६०)
गरुड १, १३६ (३८-६)	लिङ्ग १, ६६ (३-६)
पद्म ५, १३ (३५-४४)	वायु २, ३४ (६-१६)
ब्रह्म १३, (३५-४५)	विष्णु ३, १३ (३-६)
ब्रह्माण्ड २, ७० (६-१६)	हरि १, ३७ (६-१६)

महा १२, १४०; १३, २००

[v] निष्प-वंशः

अग्नि २७५, (४०-४)	भाग ६, २४ (१२; १३)
कूर्म १, २४ (३६; ४०)	मत्स्य ४४, (१-२१)
गरुड १३६, (४०-२)	लिङ्ग १, ६६ (१०-४)
पद्म ५, १३ (७४-६५)	वायु २, ३४ (१८-६८)
ब्रह्म १४, (६-४६)	विष्णु ४, १३ (६-१६२)
ब्रह्माण्ड २, ७० (१८-६६)	हरि १, ३८ (१२-५८)

[vi] मज्जान-वंशः

अग्नि २७५ (३४-६; ४७-५१)	मविष्य ३ [१], ३ (११-६७)
कूर्म २४, (३७; ३६; ६७-८६)	भाग ६, २४ (७-११; ४६-६७)
गरुड १, १३६ (५०-६४)	मत्स्य ४४, (४६; ५०); ४६
पद्म ५, १३ (३३-५; ६३-७२; १०६-३७)	लिङ्ग १, ६६ (३-३; ४६-७४)
ब्रह्म १३, (२८-५७); १४ (१-८)	वायु २, ३४ (१-५; १३५-२५७)
ब्रह्माण्ड २, ७१ (१-६); २, ७२ (१३६-२६५); ७२ (२)	विष्णु ४, १३ (१-६); १४ (२२-५३); १५ (१८-५०)
	हरि १, ३४; ३५; ३७ (३-५); ३८ (१-६)

[vii] महाभोज-वंशः

कूर्म २४, (३८)	भाग ६, २४ (११)
गरुड १, १३६ (३६)	वायु २, ३४ (१७)
ब्रह्माण्ड २, ७० (१७-८)	विष्णु ४, १३ (६-७२)

[viii] वृष्णि(वृभि)-वंशः ✓

कूर्म २४, (४२-६)	मत्स्य ४६
गरुड १, १३६ (४३; ४४)	लिङ्ग १, ६६ (१८-३१)
पद्म ४, १३ (६८-१०८)	विष्णु ४, १४ (५-११)
ब्रह्म १७, (१-२३); १४, (५०-६)	हरि १, ३४
ब्रह्माण्ड ७, ७० (१०२-१५)	

[ix] शिनि-वंशः

अग्नि २७५, (४५-८)	भाग ६, २४ (१४-८)
कूर्म २४, (४०-५)	मत्स्य ४५, (२२-३४)
गरुड १३६, (४२)	लिङ्ग १, ६६ (१५-७)
पद्म ४, १३ (६६-६)	वायु २, ३४ (६६-११४)
ब्रह्म १, १२ (२४; २५)	विष्णु ४, १४ (१-४)
ब्रह्माण्ड ७०, (१००; १०२)	हरि १, ३४ (२६-४०)

[x] वैश्य-वंशः ✓

अग्नि २७५, (१-११)	भाग ६, २३ (२०-६)
कूर्म १, २२ (१३-८७); २३	मत्स्य ४३; ४४
गरुड १, १३६ (२०-६)	लिङ्ग १, ६८ (१-२०)
देवी-भाग ६, १६-२३	वायु ७, ३२
पद्म ४, १२ (१११-५२)	विष्णु ४, १३
ब्रह्म ११, (१५४-२११)	हरि १, ३३
ब्रह्माण्ड २, २६-४७; ६६; ७०	

रामा ७, ३१-३

महा २, ४६; १३; ५

१०. रजि-वंशः

अग्नि २७४, (१६-६)	ब्रह्म ६, (२-२६)
गरुड १, १३६ (१५)	ब्रह्माण्ड २, ६७ (८०-१०५)
पद्म ४, १२ (८८-१०२)	भाग ६, १८ (१२-५)

वंश-वंशानु-वरितम्

हरि १, २८ (३-३७)

मत्स्य २४, (३५-४८)
विष्णु ४, ६ (१-२३)

महा १, ६६

११. रम्भ-वंशः

विष्णु ४, ६ (२४)

हरि १, २६ (१)

ब्रह्म ६ (२७)
भाग ६, १८ (१०-२)

(घ) पुरु-वंशः ✓

१ अजमीढ-वंशः (काण्वायनाः)

गण्ड १, १४० (६)
भाग ६, २० (६; ७)
मत्स्य ४६, (४६; ४७)

वायु २, ३७ (११६-२७; १६५)
विष्णु ४, १६ (३-७; २६-३२)
हरि १, ३२ (६३-७८)

२ गर्ग-वंशः

गण्ड १, १४० (७; ८)
भाग ६, २१ (१६; २०)
मत्स्य ४६, (४९)

विष्णु ४, १६ (२३)
हरि १, ३२ (१६-४०)

३ द्विजमीढ-वंशः (उपानुष-वंशः)

गण्ड १, १४० (१४-६)
भाग ६, २१ (२७-३६); २२ (१-३)
मत्स्य ४६, (७०-६)

वायु २, ३७ (१७६-८८)
विष्णु ४, १६ (४८-५५)

महा १, ६८

४ नर-वंशः

गण्ड १, १४० (६)
भाग ६, २१ (१-१८)
मत्स्य ४६, (३६-४०)

वायु २, ३७ (१५६-७)
विष्णु ४, १६ (१६-२२)

[vii] महाभोज-वंशः

कूर्म २४, (३८)	भाग ६, २४ (११)
गरुड १, १३६ (३६)	वायु २, ३४ (१७)
ब्रह्माण्ड २, ७० (१७-८)	विष्णु ४, १३ (६-७२)

[viii] वृष्णि(शुक्लि)-वंशः ✓

कूर्म २४, (४२-६)	मत्स्य ४६
गरुड १, १३६ (४३; ४४)	लिङ्ग १, ६६ (१८-३१)
पद्म ५, १३ (६८-१०८)	विष्णु ४, १४ (५-११)
ब्रह्म १७, (१-२३); १४, (५०-६)	हरि १, ३४
ब्रह्माण्ड २, ७० (१०२-१५)	

[ix] किन्नि-वंशः

अग्नि २७५, (४५-८)	भाग ६, २४ (१४-८)
कूर्म २४, (४०-५)	मत्स्य ४५, (२२-३४)
गरुड १३६, (४२)	लिङ्ग १, ६६ (१५-७)
पद्म ५, १३ (६६-६)	वायु २, ३४ (६६-११४)
ब्रह्म १, १२ (२४; २५)	विष्णु ४, १४ (१-४)
ब्रह्माण्ड ७७, (१००; १०१)	हरि १, ३४ (२६-४०)

[x] वैदय-वंशः ✓

अग्नि २७५, (१-११)	भाग ६, २३ (२०-६)
कूर्म १, २२ (१३-८७); २३	मत्स्य ४३; ४४
गरुड १, १३६ (२०-६)	लिङ्ग १, ६८ (१-२०)
वेणी-भाग ६, १६-२३	वायु ७, ३२
पद्म ५, १२ (१११-५२)	विष्णु ४, ११
ब्रह्म ११, (१५४-२११)	हरि १, ३३
ब्रह्माण्ड २, २६-४७; ६६; ७०	

रामा ७, ३१-३

महा २, ४६; १३; ५

१०. रजि-वंशः

अग्नि २७४, (१६-६)	ब्रह्म ६, (२-२६)
गरुड १, १३६ (१५)	ब्रह्माण्ड २, ६७ (८०-१०५)
पद्म ५, १२ (८८-१०२)	भाग ६, १८ (१२-५)

वंश-वंशानुचरितम्

हरि १, २८ (३-३७)

मत्स्य २४, (३५-४८)

विष्णु ४, ६ (१-२३)

महा १, ६६

११. रम्भ-वंशः

विष्णु ४, ६ (२४)

हरि १, २६ (१)

घ्नस्य ६ (२७)

भाग ६, १८ (१०-२)

(घ) पुरु-वंशः

१ अजमीढ-वंशः (काश्यायनाः)

वायु २, ३७ (११६-२७; १६५)

विष्णु ४, १६ (३-७; २६-३२)

हरि १, ३२ (६३-७८)

गरुड १, १४० (६)

भाग ६, २० (६; ७)

मत्स्य ४६, (४६; ४७)

२ गर्ग-वंशः

विष्णु ४, १६ (२३)

हरि १, ३२ (१६-४०)

गरुड १, १४० (७; ८)

भाग ६, २१ (१६; २०)

मत्स्य ४६, (४१)

३ द्विजमीढ-वंशः (उप्रायुध-वंशः)

वायु २, ३७ (१७६-८८)

विष्णु ४, १६ (४८-५५)

गरुड १, १४० (१४-६)

भाग ६, २१ (२७-३६); २२ (१-३)

मत्स्य ४६, (७०-६)

महा १, ६८

४ नर-वंशः

वायु २, ३७ (१५६-७)

विष्णु ४, १६ (१६-२२)

गरुड १, १४० (६)

भाग ६, २१ (१-१८)

मत्स्य ४६, (३६-४०)

५ नील-वंशः (अजमीढ-संततिः)

अग्नि २७८ (१६-२५)
गरुड १, १४० (१७-२४)
ब्रह्म ११ (६३-१०१)

मत्स्य ५०, (१-१४)
वायु २, ३७ (२०६-५५)
विष्णु ४, १६ (५६-७३)

महा १, २०१

६ पुरु-जनमेजय-वंशः

अग्नि १३
गरुड १, १४०
देवी-भाग ६, २४; २५
ब्रह्म ११, (१-१२५)
भविष्य ३, ३ (३२-८३)

भाग ६, २०-२
मत्स्य २४; ४६; ५०, (१-५१)
वायु २, ३७ (२०६-५०)
विष्णु ४, २०
हरि १, ३१; ३२ (१-११६)

रामा ७, ५६; ५८; ५९

महा १, ६६; ८८; ३, ३०-६६; १३, १६६

७ बृहत्सप्त-वंशः

भाग ६, २१ (२०; २१)
मत्स्य ४६ (४२; ४३)
वायु २, ३७ (१६१)

विष्णु ४, १६ (२७; २८)
हरि १, २० (१६; १७)

८ बृहदिपु-वंशः (अजमीढ-संततिः)-(नीप-वशः)

गरुड १, १४० (१०-३)
मत्स्य ४६ (४८-६६)
वायु २, ३७ (१६५-८)

विष्णु ४, १६ (३३-४७)
हरि १, २० (१८-३४)

९ महावीर्य-वंशः

वायु २, ३७ (१५८-६०)

विष्णु ४, १६ (२४-६)

१० सुघनु-श्रुतिश्रवाः

मत्स्य ५० (२४-३४)
विष्णु ४, १६ (७४-८५)

हरि १, ३२ (८६-९६)

महा २, ४-२५

११ सुहोत्रि-वंशः

वायु २, ३७ (१६२)

विष्णु ४, १६ (२७)

महा १, ६३; १०१; ३, १६७

(६) कलियुगीय-राज-वंशाः

१ पौरव-वंशः

राज-नामानि

अधिसीमकृष्णः
अभिमन्धुः
अश्वमेधदत्तः
उदयनः
उष्यः
क्षेमकः
चित्ररथः
जनमेजयः

तियमान्मा
दण्डपाणिः
दुर्गः
निचक्षुः
निरामित्रः
वृषक्षुः
नृपप्रयः
परिश्रवः

परीक्षितः
वृहद्रथः
मेधावी
रुचः
वसुदानः
वदोनरः
वृष्णिमान्

शतानीकः (i)
शतानीकः (ii)
शुचिदयः
शुखोदलः
मुनयः
मुनीयः
मुपेणः

गरुड १, १४० (४०१-४१); १४१
(१-४)
भाग ६, २२ (३४-४४)

मन्स्य १०, (५७, ६५; ६६; ७८-८६)
घायु २, ३७ (१४१-१५; २६७-७५)
विष्णु ४, २१

२ इक्ष्वाकु-वंशः

राज-नामानि

अन्तरिक्षः
अमृतजित्
उदक्षयः
किन्नराश्वः
कुलकः
कृतप्रयः
कुन्दकः
दिवाकरः

धर्मा
प्रतिष्णोमाः
प्रतीताश्वः
प्रसेनजित्
वृहत्क्षयः
वृहदधः
वृहद्वलः
वृहद्व्राजः

मानुरथः
मरुदेवः
रणप्रयः
राहुलः
वत्सव्यूहः
शाक्यः
शुद्धोदनः
गङ्गयः

सहदेवः
सिद्धार्थः
मुनद्युतः
मुपर्णः
मुप्रतीकः
मुमित्रः
मुरयः

गरुड १, १४१ (५-८)
अष्टाष्ट ३, ७४ (१०४-७)
भाग ६, १२ (६-१६)

मन्स्य २०१, (४-१७)
घायु २, ३७ (२७६-८)
विष्णु ४, २३

३ बार्हद्रथ-वंशः

राज-नामानि

अमुतायुः
क्षेमः
विनेत्रः

वृद्धनेत्रः
निरामित्रः
निर्गुणितः

वृहत्कर्मा
महोनेत्रः
रिपुप्रयः

रिसुः
विश्वजित्
शुचिः

धनुञ्जयः	सहदेवः	सुनेत्रः (i)	सुमतः
धृतेध्रवाः	सुक्षत्रः	सुनेत्रः (ii)	(सुधमः)
सत्यजित्	सुचलः	(सुमतिः)	सेनजित्
			सोमाधि
गरुड १, १४१ (६-११)			मत्स्य २७१, (१७-३०)
ब्रह्माण्ड ३, ७४ (१०७-२२)			घायु २, ३७ (२८६-३०३)
भाग ६, २२ (४५-६)			विष्णु ४, २३

४ प्रद्योत-वंशः

राज-नामानि

अजकः	पालकः	विशालयूपः	
नन्दिवर्धनः	प्रद्योतः		
ब्रह्माण्ड २, ७४, (१२२-७)			मत्स्य २७२, (१-४)
भविष्य ३ [१], ४ (१-१०)			घायु २, ३७ (२०४-८)
भाग १२, १ (१-४)			विष्णु ४, २४ (१-८)

५ शिशुनाग-वंशः

राज-नामानि

अजातशत्रुः	सुश्रीजाः	नन्दिवर्धनः	महानन्दी
उदयी	सैमधर्मा	विजितारः	शिशुनागः
काकवर्णः	दर्शकः		
ब्रह्माण्ड २, ७४ (१२८-३८)			घायु २, ३७ (१०८-१६)
भाग १२, १ (५-८)			विष्णु ४, २४ (६-१६)
मत्स्य २७२, (५-१६)			भविष्य ३ [१], ६ (२६-३०)

६ नन्द-वंशः

राज-नामानि

महापद्मः,	सुकलाः	
ब्रह्माण्ड २, ७४ (१३६-४२)	घायु २, ३७ (३१७-२३)	
भाग १२, १ (८-१२)	विष्णु ४, २४ (२०-२८)	
मत्स्य २७२, (१७-२१)	भविष्य ३ [१], ६ (३१-४)	

७ मौर्य-वंशः

राज-नामानि

अशोकः	दशरथः	बन्धुपालितः	शतधन्वाः
कुनालः	दशोनः	बिन्दुसारः	शालिशूकः
चन्द्रगुप्तः	देवधर्मा	बृहद्रथः	सम्प्रतिः

वंश-वंशानुचरितम्

ब्रह्माण्ड २, ७४ (१४३-८)
भाग १२, १ (१३-६)
मत्स्य २७२, (२२-५)

वायु २, ३७ (२२४-३०)
विष्णु ४, २४ (२६-३२)
भविष्य ३ [१], ६ (४३-५)

८ शुक्ल-वंशः

राज-नामानि :

अग्निमित्रः
अग्निः
घोषः

देवभूमिः
पुलिन्दकः
पुण्यमित्रः

भागवतः
वज्रमित्रः
वसुज्येष्ठः

वसुमित्रः

ब्रह्माण्ड २, ७४ (१४६-५५)
भाग १२, १ (१७-८)
मत्स्य २७२, (२५-३१)

वायु २, ३७ (३३१-६)
विष्णु ४, २४ (३३-७)
भविष्य ३ [४], २३ (२७-४७)

९ कण्व-वंशः

राज-नामानि

नारायणः

भूमिमित्रः

वसुदेवः

सुशर्मा

ब्रह्माण्ड २, ७४ (१५६-६०)
भाग १२, १ (१६-१२)
मत्स्य २७२ (३२-६)

वायु २, ३७ (३३७-४१)
विष्णु ४, २४ (३८-४२)

१० आन्ध्र-वंशः

राज-नामानि

अरिष्टकर्षीः
आपीतकः
कुन्तलः
कृष्णः
गौतमीपुत्रः
चकोरः
चण्डश्रीः
पुरिकवेणुः

पुलोमा-
पुलोमाविः (i)
पुलोमाविः (ii)
पूर्णोत्सवः
मन्तलकः
सृगेन्द्रः
मेघस्वाति-
यज्ञश्रीः

लम्बोदरः
विजयः
शातकर्षी (i)
शातकर्षी (ii)
शिवथीः
शिवस्कन्ध-
शिवस्वातिः
श्रीशातकर्षिः

सिमुक-
सुन्दरः
स्कन्दस्वातिः
स्कन्धस्तम्भिः
स्वातिः
स्वातिवर्णः
हालः

ब्रह्माण्ड २ ७४ (१६१-७०)
भाग १२, १ (२३-८)
मत्स्य २७२, (१-१७)

वायु २, ३७ (३४२-५२)
विष्णु ४, २४ (४३-५०)
भविष्य ३ [४], २३ (४८-६०)

११ स्थानीय-राज-वंशाः

ग्रन्थाण्ड ३, ७४ (१७१-६)
भाग १२, १ (२७-६)
मत्स्य २७३, (१७-२४)

वायु २, ३७ (२५३-६०)
विष्णु ४, २४ (१३-६)

१२ वैदेशीय-राज-वंशाः

ग्रन्थाण्ड ३, ७४ (१७६-८५)
भाग १२, १

वायु २, ३७ (३६१-७)
विष्णु ४, २४ (१७)

१३ क्राइस्टचतुर्थशताब्दीय-राज-वंशाः

ग्रन्थाण्ड ३, ७४ (१८६-६३)
भाग १२, १

वायु २, ३७ (३६८-७६)
विष्णु ४, २४ (१७; १८)

१४ क्राइस्टचतुर्थशताब्दीय-राज-वंशाः

ग्रन्थाण्ड ३, ७४ (१९४-२००)
भाग १२, १

वायु २, ३७ (३७७-८१)
विष्णु ४, २४ (१८)

१५ प्रमर-वंशः (सामवेदिनाम्)

चपहानि-वंशः (यजुर्वेदिनाम्); धात्रिपाः

मविष्य ३ [१], ६ (४६-६)

१६ अग्नि-वंशः (प्रमर-वंशः)

मविष्य ३ [१], ७; ३ [४], १

१७ शालिवाहन-वंशः

मविष्य ३ [३], २; ३

१८ भोजराज-वंशः

मविष्य ३ [३], ४

१९ तोमर-वंशः

मविष्य ३ [४], २

२० शुक्ल-वंशः

मविष्य ३ [४], ३

वंशवंशानुचरितम्

२१ पनिहर-वंशः

मघिय्य ३ [४], ५

२२ गुलाम-वंशः

मघिय्य ३ [४], ६

२३ तैमूर-वंशः

मघिय्य ३ [४], ६ (४४-५६); २२ (१-३)

२४ मुगल-वंशः

मघिय्य ३ [४], २२ (४-६१)

२५ गुरूण्ड-वंशः

मघिय्य ३ [४], २२ (६२-८८)

२६ मौन-वंशः

मघिय्य ३ [४], २२ (८८-९७)

२७ नाग-वंशः

मघिय्य ३ [४], २३ (१-२६)

२८ राह-वंशः

मघिय्य ३ [४], २३ (८१-१३२)

२९ विविध-नृपति-वंशाः

प्रह्लागह २, ७४ (७१-२०६)

भाग ६, १ (२६-४३)

मत्स्य २, ७३, (१८-८१)

यायु २, ३७ (३५३-४५८)

विष्णु ४, २४ (५१-६६)

मघिय्य ३ [४], २३ (६१-८०)

३० कलियुगीय-राजवंशान्तर्गत-नृपतिचरितम्

उदयसिंह-चरितम्

मघिय्य ३ [३], ४-३२

जयचन्द्र-चरितम्

देवसिंह-चरितम्

पृथिवीराज-चरितम्

प्रद्योत-चरितम्

मघिय्य ३ [३], ४ (१-१०)

बलवानि-चरितम्, ब्रह्मानन्द-चरितम्

मघिय्य ३ [३], ४-३२

मर्तुहरि-चरितम्

मघिय्य ३ [३], २३

भविष्य ३ [३], ३

मोजराज-चरितम्

भविष्य ३ [२], ३४

महानन्दि-चरितम्

भविष्य ३ [३], ४-३२

लक्ष्मण-चरितम्

भविष्य ३ [१], ७; ३ [२], १-२३

विक्रम-चरितम्

(घ) देव-वंशः

यज्ञ-गन्धर्व-किन्नर-नाग-गुह्यक-भसुर-राक्षस-वंशाः देवयोन्मुत्पत्तिश्च

अग्नि १६

मार्क २१; ४५; ६८; ७५ (३१)

कूर्म १, ७ (४१-४४); १६-६

लिङ्ग १, ६३

गण्ड १, ६

वायु १, ६ (१-६६); ३१; २, ५; ६; ८;

पद्म २, ६-२१; ४, ६; ४४

२४ (३३-४३)

ब्रह्म १, (१३६-२१८), ३

विष्णु १, ५ (३०-४६)

ब्रह्माण्ड १, ८ (१-४१); २, ५-८

शिव-महा ५, ३२, ३३

मत्स्य ४-७; २०२

हरि १, ३

रामा ३, १४

महा १, ४-१२; १३-५८; २, ५२; १२, २०८

१ अधिपतिः

अग्नि १६, (२२-६)

वायु २, ६

पद्म ४, ७ (६६-८०)

विष्णु १, २२ (१-१५)

ब्रह्म २, (१-१७)

शिव-महा ५, ३३ (१६-३१)

ब्रह्माण्ड २, ८ (१-२५)

हरि १, ४

मत्स्य ८

२ किरातः

महा ३, ३०-४०

३ चित्रसेनः

महा ३, २४१-५८

४ चैत्ररथः

महा १, १२६-६६

५ यज्ञः

महा २, १५८-६७; ३, ३१२-५

(छ) असुरराज-वंशः

दैत्य-दानव-राक्षस-वंशाः

अग्नि १६, (५-२०); २७६ (१०-२५); ७-१०	भाग ६, १८; १६
कूर्म १६-१६	मत्स्य ६; ७; ११; ४७
गरुड १, ६ (४२-५५)	मार्क ४५ (१-६)
वेणी-भाग ४, ३ (२१-५५); ३, ३०; ५, २; ३	सिद्ध १, ६१; ६२-७
नारद १, १०	घराह २५; ३२; १४४; १६३; २१६;
पद्म २, १-२५; ११८-२१; ५, ६; ७; ३१; ३७-४३; ६२-७४; ६, २-१६; ६२-१०७; २५८-६१; २६४-७२	घामम ७-१०; २३-३१; ५५-८७
ब्रह्म १, १७८	घासु २, ६-६; २२-७; ३५-७६
ब्रह्म-वे १, १६; २, १४	विष्णु १, १५; १६-२२; ३, १७, १८
ब्रह्माण्ड २, ५; ६; ८; २४; ५६; ६७, ७२; ७३	शिव ६-२४
	शिव-महा २ [१], ३५; ५, ३२; ३३
	स्कन्द १ [१], ८; २, ८ (८); ३ [१], ४७; ४६; ५ [३], ३५; ८३; ६, २२; ३४-४३; ७ [१], ११
	हरि १, ३; ४
	रामा ७, १-३४; ४६; ४७; ८६
	महा १, १; ५६-१४३; १२, २०७

(ज) वानर-वंशः

१ द्विविदः

भाग १०, ६७

महा ३, २६०

२ नलः

महा ३, २८४

३ मैदः

महा २, ३२; ३, २६०

४ सुग्रीवपालिनोश्चितम्

पद्म ५, १४

स्कन्द २ [८], ८; ३ [१], ४२

ब्रह्माण्ड २, ३ (२४०-७४)

रामा १, १७; १८; ४, ६५; ७, ३५; ३६

महा १, ६७; २, ५०; ३, २८१

५ सुपेणः

महा ३, २८४

६ हनुमच्चरितम्

पद्य ४, ४४; ५२; ११०

शिव-महा ३, २०

स्कन्द ३ [१], १५; ४५; ४६; ३ [२],

३६-४०; ३ [८], ८; ५ [१], २१;

५ [२], २६; ५ [३], ८३

रामा ४, ६; ७



पञ्चमं प्रकरणम्

जातयः

प्रस्ताव २, १६ (४०-६७)
मत्स्य ११४, (३४-३६)
मार्क ५४, (३३-५६)

वामन १३, (३६-५८)
यायु १, ६४ (१०६-३६)

१ उत्तरदेशीयाः

अङ्गलौकिकाः
अग्निभद्राः
अपरान्ताः
अवगाना
आभीरा.
औरसाः
कण्टकारा.
कम्बोजाः
कालतोयाः
कारभीराः
किराताः
कुथिन्दाः
कुलूताः

कैकेयाः
सुस्रवोषाः
सुभियात्र
सुदाः
गान्धारा.
कर्मखण्डिकाः
बीजाः
चूलिका.
आगुहा
तङ्गणा.
तुपाराः
तोमराः
दरदा

दर्वा
दसमानका
दनेरकाः
पडवाः
पारदाः
प्रस्थला
बहुलाः
वाल्हीकाः
भरद्वाजाः
मदकाः
यवनाः
रमठाः
लम्पाका.

वर्वरा.
वाटधानाः
वाहीकाः
शातनुजाः
शुद्धाः
सिन्धवः
सौवीरा.
हसनागाः
हारहृणका.
हृणा

२ दक्षिणदेशीयाः

अन्ध्राः
अन्ध्रपाः
अश्वमेकाः
आटव्याः
उद्विदाः
श्रष्टिकाः
कलिङ्गाः
कविराः

कुन्तलाः
कुमाराः
कुल्याः
केरलाः
चैपीकाः
चोलाः
दण्डकाः
नलकाः

पाण्ड्याः
पुलिन्दाः
पौरिका.
मोगवर्दना.
महाराष्ट्राः
माहियका.
मूषिकाः
मौलिकाः

वनवासका.
विदर्भा.
विन्ध्यमूलीका.
शबरा
सेतुकाः

३ पर्वतदेशीयाः

कण्ठप्रवरण्याः	तंगणाः	निराहाराः	ह्रुकाः
किराताः	तोमराः	माल्वाः	
कुम्भ.	त्रिगर्ताः	हृन्मार्गाः	
ससाः	दावाः	हृणाः	

४ पश्चिमदेशीयाः

अपरान्ताः	कारस्कराः	नासिन्वाः	रमिनाः
अर्जुदाः	कोलवनाः	पुखेयाः	रूपसाः
आनर्ताः	खामसा.	अरकच्छाः	शूरपारकाः
उत्तरनर्मदाः	तालीकटाः	माहेवाः	सारस्वताः
कच्छीयाः	दुर्गाः	शुरलाः	सुराष्ट्राः

५ पूर्वदेशीयाः

अंगाः	पौण्ड्राः	मगधाः	सुररकाः
अन्तर्गिर्यः	प्राशुज्योतिषः	मसदाः	बह्नाः
आज्ञेयाः	बर्हिर्गिर्यः	मज्जाः	वाज्ञेयाः
गोनर्दाः	प्रद्योतराः	मल्लकाः	विदेहाः
ताम्रसिप्तकाः	भार्गवाज्ञेयाः	मल्लवर्तका.	श्रीविजयाः

६ मध्यदेशीयाः

अन्धकाः	कुरुपयालाः	बोधः	शात्वाः
आवन्ताः	कुलयाः	अद्रकाराः	शूरसेनाः
काशयः	कोशलाः	भुलिङ्गाः	
किराताः	जाम्बूलाः	मगधाः	
कुन्तयः	षट्परा	मत्स्याः	

७ विन्ध्यदेशीयाः

अन्धाः	किन्दिन्धाः	तोशलाः	भोगाः
अवन्तयः	कोशलाः	त्रैपुराः	मल्लदाः
उत्कलाः	गुणिकेराः	दशावर्षाः	मेलकाः
उत्तमर्गाः	तुम्बवना.	निवधाः	वसिष्ठोनाः
कारुधाः	तुम्बानाः	षट्पः	वैदिशाः

षष्ठं प्रकरणम्

अध्यात्मप्रकरणम्

१ आत्म-तत्त्वम्

अग्नि २५; ३६६; ३७०	पद्म २, ७
गण्ड २, १-४६	शिव-महा ५, २२
देवी-भाग ४, ३२-७; ६, २८	स्कन्द १ [२], ४६
	महा ५, २३; ६, २६; ११, २-८; १२, १७३; १८२; २५६; ३२८; १४, २२; २३; ४०

२ कर्म-विपाकः

अग्नि ३७१	ब्रह्म-वै २, ५१; ५२
गण्ड १, १०४; १०५; २२५	मार्क १०, ११; १५
देवी-भाग ४, २; ६, १०; ६, ३२-७	बराह १६७-२०७
नारद १, १५; ३१	यामन ७२
पद्म २, १५; ७०; ६४-६; ४, ६७; ६८; ५, २३७; २४१-५	स्कन्द १ [३], ४६-५१

शामा ७, २१; १३, २३
महा ११, ३; ५, १२, २८; २१; १३, १; ७; ४१-११३; १८, १-६

३ मुक्तिः

कूर्म २, १०	बराह १७, ५२; ५३; २१०-१२
नारद १, ३२; ४५-६; ६०-२; १२५	शिव ७५; ७५
पद्म ५, २४३-५	शिव-महा १, ४; ४, ४१-४३; ५, ५-११; २५-८
ब्रह्म १०५-७	स्कन्द ७ [१], १०७
ब्रह्म-वै २, ३२	महा ११, ७; १२, ७, ६; १६५; १७४-३७५; १३, २४३

४ मृत्यु-बन्ध-संसारः

गण्ड २, १-४६	पद्म २, १४; १५; ६, २२५-६
	महा ११, ५-७; १२, १६; २६; १७४; २५५-७; २६४; १३, १; १४, १८; ४४;

५ योग-ध्यानम्

अग्नि २२, १६५; २१४-१७; ३७२-६	मत्स्य ५२; २५७
गण्ड १, १४, ३६; ६१; ६२; २१७; २२६	मार्क ३६-६
कूर्म २, ११; १८	लिङ्ग १, ८-१०; ८५; ८६-८
देवी-भाग ११, १६-२१	याजु १, १०-५
नारद १, ३३; ४४; ६६	शिव-महा ५, १२; ६ [१], १; २; १०-७,
पद्म १, ५०-२	६ [२], २-७; ७ [२], २७-३६
ब्रह्म १०६-३७	स्कन्द १ [२], ५४; २, ६; ६, २६१; ७ [३],
भाग ३, २८	१८

महा १२, १७; २१०; २३८; २३६; २६७-६,
३१०-८ १४, २०; २६; ५१;
७६; २४६

६ वेदान्तः (उपनिषद्)

अग्नि ३७७-८२	पद्म २, ६-६; ५, १६०
कूर्म २, १-१०	भाग २, १-१०; ३, २५-३३
गण्ड १, २३५-६	विष्णु ६, ६; ७
देवी-भाग ६, ३४; ७, ३६; १२, ८	स्कन्द ५ [१], ११; ६, २६२; ७ [१], २२
नारद १, ३२-६; ५६	

महा ५, ४१-६; ६, २५-४२; ११, २-६;
१२, २१२-६; ३१८; १३, १५

सप्तमं प्रकरणम् स्मृतिः [धर्मशास्त्रम्]

१ अनध्याय-उपाकर्मणी

२ आपद्धर्माः

महा १२, ७८; १३१-७३

३ तीर्थमाहात्म्य-तीर्थयात्राः

मत्स्य १०२-११

घटाह १३७-८०; २१३-६

वामन २२; ३२-७

वायु १, ६०; २, ४३-५०

शिव ५१-७

शिव-महा १, १३-५; २, २-५

स्कन्द १ [१], ३५; ३५; १ [२]; १ [३];

२, [१-३]; ४, २; ५ [३], २२७

अग्नि १०६-१७

कूर्म १, १०-४४; ३, ३५-४४

गण्ड १, ८१-६; २, ३८, ३, १५-२६

देवी-भाग ३, २४, २५; ६, १२; ७, ३०

नारद १, ६-११; २, ३६-८२

पद्म १, १३; ६०-२; २, १-१२५; ४,

६६-८३; ५, १४-६; २६-६; ५२; ६०

ब्रह्म २३-५; ३६-६६; १२१

भाग २, १-१०५; १०, ७६

महा १, २१३-३८; ३, ८०-१४८; ६,

३५-६५; १३, २५; २६; १०८

४ दानम् (पात्रापात्र-विवेकः)

अथिष्य १, १८७-६; ४, १२७-२०४

मत्स्य ८०-६०; ३०४-६; २७३-८८

लिङ्ग २, २८-४६

घटाह १, ६६-११२

शिव-महा ५, १२-२४

स्कन्द १ [२]; २ [१], २०; २२; ५ [३],

५०; ७ [१], २०५; २०८

अग्नि ०६-१३; २७२

कूर्म २, २६

गण्ड १, ५१; ६८; १०७; २, ६; १३; १४;

१८; ४१; ४२

देवी-भाग ६, २६; ३०

नारद ३, १३

पद्म २, ६७; ३, २४; ५, २०; ५४; ५६;

७५; ६, २७; २८; ३३

रामा ७, ७७, ७८

महा ३, १८६; २५६; १२, ३२; १३, ६;

१५-८; २२; ५८-७४; ७६-८६; ६५,

९८; १३७-९; २३५; १४, १८; १०८

५ द्रव्य-शुद्धिः

अग्नि १५६

गरुड १, ६७

६ पितृकल्पः (थादम्)

अग्नि ११७; १६३-४

भक्त्य १०१; २०३

सूर्य २, २०-७

मार्क २७-३०

गरुड १, ६६; १००; २१८-२०; २, १-४६

चण्ड १३-४; ३४; १८७-६२

प्रेतवण्डः

घायु १, ६; १०; ५६; २, ११-२१

नारद १, १४; २८

विष्णु ३, १४-८

पद्म २, १-६३; ४, १०१; ११३; ५, ६-२१;

शिव-महा ५, १२; ४०-२; ६, १२

४७

स्कन्द ३ [२], ५-७; ६, २१५-२५; ७ [१],

ब्रह्म ११०-२

२०५-८

ब्रह्मण्ड १, २८; २, ६-२०

हरि १, १६-२४

भविष्य १, १८४; १८५

महा १, १३७; ११, २५-६६; १३, ८७-६२;

१३४-६; १८८; २३८

७ पूजा-दीक्षा-संस्काराः

अग्नि २१-१०६; २६४-७०; ३०३-८;

६, ८३; १२७

३१८-२७

भविष्य १, २८; ११३-५; २ [१], १६

गरुड १, ७; ८-१३; १६; १७; २२-३३;

लिङ्ग ७३-६

६१; ६२

शिव ७; ८

देवी-भाग ७, ३८-४०; ८, २४; १२, ७

शिव महा १, ११; १७-२५; २ [१], ११;

६, ३-६

नारद १, ६३-६; १२५

स्कन्द १ [१], ८-६; २ [२], ७ [२], १३

पद्म ३, १०५-८; ११३; ४, ७६; ७८-८२;

८ प्रायश्चित्तानि

अग्नि १६७-७४

पद्म ३, ६८; १६ ✓

सूर्य २, ३०-४

भविष्य १, १८६

गरुड १, ५२; १०५

शिव-महा ५, ५; ६; १६

देवी-भाग ११, २४

स्कन्द १ [३], ६

नारद १, १४; २६; ३०

महा १२, ३३-१६२; १३, १३६; १५१

९ मर्यामरुच्यम्

सूर्य १, १७

महा-श्वे १, २७; २८

पद्म १, ५६

महा १२, ३५; २२१; १३, १३५

१० मनुष्य-लक्षणम्

अग्नि २४३
भविष्य १, २६

मत्स्य १४०

११ यातनास्थान-नरक-कर्मवियाकाः ✓

अग्नि २०३; ३७१
गण्ड १, १०४
देवी-भाग ८, २१-३
ब्रह्म १०५-६,
ब्रह्म-सू २, २६-३१
भविष्य १, १६०-२; ४, ३-५

भाग ५, २६
मार्क ११; १२
यराह १६३-२२२
विष्णु २, ६
शिव-महा ५, ८-१०.
स्कन्द १ [२], ३६

रामा ७, २१; १३, २३

महा १२, १४; १४, १७; १८, १-३

१२ राजधर्म-राजनीति-दण्डनीति-राजशासनानि

अग्नि २८; २१८-४८; २४३-८
पद्म ३, ३६-८
भविष्य १, २६

मत्स्य २१३-२६; २४१; २४२
मार्क २४
स्कन्द ७ [२], १७

रामा २, ४; १००; ३, ३५-४०; ४, ३;
६, ६-१६; १७-६; ३५; ६२; ६४;
७, ५३

महा २, ५; ४, ४; १२; ६, १; १२, ५५-
१७२; १३, ३३; ३६; १५, ६-८

१३ वर्णाश्रम-धर्माः

अग्नि १५१-४; १६०; १६१; १६६
शूर्प १, २; ३; २, १२-६; २४-६
गण्ड १, ४६-५३; ६३-१०७; २१३-७
देवी-भाग ११, १-२४
नारद १, १४; १५; २४-७
पद्म १, ५०-६०; ५, १५; ४४-५७; ६,
२३३; २३६
ब्रह्म ११३-७
ब्रह्म-सू १, १०; ११, २४

भाग ७, १२-५
भविष्य १, ३-१५; ४२-४; १८३; १८३;
२, ५; ६
मार्क २५; २६
वायु १, ८
विष्णु ३, ८-१३
शिव-महा ५, २७; ६, १-६; १२-२६
स्कन्द ४ [१], ३५-४२; ६, २४२; ७ [१],
२२; १०६

रामा २, ७५; ३, ६; ७, ७४

महा ३, १४६; १५०; १८०; १८३-६०; २००;
८, ४०; ४४; १२, ७-१३; १६-२२;
२६; ३२; ५५; ५६-६२; ६५

१४ अत-तियिमाहात्म्य-उत्सवाः

अग्नि १७४-२०८	७०-६; ६४; ६५; ६८; ६९; १६४-
गण्ड १, ११६-३७	६; २०६; २०८-११; ४, ७-१२
देवी-भाग ३, २६-३०; ७, ३८	✓ मत्स्य २६; ३७
✓ नारद १, १७-२३; १२०-२४; २, १-८२	लिङ्ग १, ८२-४
✓ पद्म २, ८७; ३, २-२६; ४, ८४-९६; ५,	घराह १७-६६ ✓
२१-५; ७५-७; ६, २६; ३०-२;	यामन १६; ७६; ८०
३५-६८; ७०; ७१; ७८; ८५-७;	✓ शिव-महा १, १; ४, २७-४१
८९-९१; ९४-७; १०८-२५; १७०;	स्कन्द १ [१], ६-८
२१६-२४; २३६-४१;	हरि २, ८०; ८१
मघिय्य १, १६-४१; ४६-८८; ६३-५;	
महा १३, ७५; ६३; १०६-६; १५१;	
१७२	

१५ शौचाशौचम्

अग्नि १५७-६; १६८	देवी-भाग ११, २
गण्ड १, ५०; १०६; २, ५; ३८; ४३	नारद १, १४
महा १३, २३; १७०	

१६ साधारण-धर्माः

अग्नि १४५-८ शैव-शाकी; १५५; १६२	मार्क ३१; ३२
गण्ड १, ४९-५३; २१३-२२; २२७-३४	तिग्गि १, ८६; ९०; २, ८; २७ पाशुपतः
देवी भाग ११, १-२४ शाक्तः	घराह १, ५२; ५३; ११५-३६
नारद १, ६४-६१ पाशुपतः	यामन ४३
पद्म १, ८६-९; २, ८६ वैष्णवः; २, ६६-८१	यायु १, १६-२० पाशुपतः
शैवः ४, ८४-९६ वैष्णवः ४, १०२-८	शिव-महा १, १६; ४, ३६-४२; ७ [२],
शैवः ५, २१ शैवः ५, ४६; ६, २८०	१०-३६ शैवः
भाग ११, १-३ भागवतः	स्कन्द १ [२], ४१-३ शैवः १ [२], ४७
मघिय्य १, ४९-२१५ शैवः १, १६३; ४,	शाक्तः २ [२] वैष्णवः २ [६] २०-१२;
२०४	३ [२]; ३ [३] शैवः
मत्स्य ६२	

रामा ४, १८

महा ३, २०६; २०७; २१६; ८, ११; ७०;
 १२, २७, ३६; १०६; १२३; २४०;
 १४१; २५८; २५९; ३०६; ३३, १३०;
 १३२-४; १४१; १४, १७

स्मृतिः [धर्मशास्त्रम्]

१७ स्त्री-धर्माः

अग्नि २४४
 गरुड ३, २२
 देवी भाग २, २४
 नारद १, २४
 पद्म ५, ४८; ४९; ६, २३४
 ब्रह्म-सू १, २६; २, २३-२४
 भविष्य १, ५; ६; २८

भाग ७, ११
 मत्स्य ६६; २०७-१२

लिङ्ग १०

शिव-महा ५, २४

स्कन्द २ [१], २६; ३ [२]; ४ [१], ५;
 ६, ४२

रामा २, ११७; ११८

महा ३, २०५; २३३-६; २६४-३००;

१३, ३७; ५०; ५२; ५९; ७३-८;

८१; १२३; १४६; २४९; २५०



अष्टमं प्रकरणम् आविदैविकम्

देवतामाहात्म्य-अवतार-चरितानि

मग्निर १-४, १६; २१-४४	८, २-४; ८-१०; १०, ६-१२; १५-२३
कूर्म १, १; २; ६; १२; १४-७; २५-२६; २, ५१	मत्स्य १; १३-६; ४७; १२८-३६; १६०-३;
गण्ड १, ५; ७; १५-७; १४२; २२७-३४;	१६६-८०; २४३-५०; २४६
३, ४-२६	मार्क ४; १६; ७८-६०
देवी-भाग १, ४-९; २, १२; ३, १-१३;	लिङ्ग १, १२-४४; ६५; ७१; ७२; ६३-६;
२४; ४, १-२४; ५, १-३५; ६,	६८-१०५; १०५; १०६; २, ४-२७
१-६; २४-३१; ७, २८-३१; ८, ६; ७;	यराह ३, ६; ६०-८१ ११३; ११४
६, ४-३१; १०-५०; १०, ११-३;	यामन १, ६-१०; २१; २४-३१; ५५-७०;
१२, ६	७३-६४
नारद १, ४-५; ११; १५; १६; ३२;	वायु १, ६; २३-७; ३०; ५४; ५५; २,
३७-६; ६३; ६४	३५; ३६
पद्म १, ५०; २, ७१-५; ८७; ३, १; ३३;	विष्णु १, ४; १६-२२; ३, ५
२२; ५, ३; ४; १३; ३७; ४२; ४३;	शिव ५, ६-२४; ३२-४३; ५८-६०;
५७; ५८; ६१-६३; ६९-७१; ७३-७८;	६२-७०
८०-२; ६, ३-१६; २४; २८-४६; ७२;	शिव महा १, ६-८; २ [१], ६-१०।
७३; ८१; ६२; ६३; ९८-१०७; १२६;	१५-२०; २ [२-३]; २ [४], १-१२;
१२८; १६३; १६३; २५५; २५८-०९;	२ [५]; ३, १; २; ६-४२; ४, १-३६;
२८१; २८२	५, १; ३; ४; ६ [४], १३-२०; ७ [१],
ब्रह्म २६-३६; ७०-१०४; ११८-२०	२-७; १८-२३; २५-३१; ७ [२],
ब्रह्म-वै १, १-६; १२-३०; २, १-६७; ३,	२-७
१-४६	स्कन्द १ [१], ६-३१; ६४-७१; १ [२],
ब्रह्माण्ड १, २५-७	१४-२५; १ [३], ५-८; २, ६; २३
भविष्य १, ४५; ४९-२१५; २, २४-६	हरि १, ४०-५५; ३, १-७२; १३३
भाग २, ७; ३, १३-६; ४, २-७; ७, १-१०;	
रामा १, ४५; ६, १०५; ७, ८५; ८५	
महा १, १८६; ३, ३; ३८-४१; २२०-३३;	
५, २२; ७, २०२; २०३; ८, १;	
६, ३३; ३६; १०, ७; १७; १८; १२,	
४२; ४६; ४७; २०६; २५२-६५;	
२८०-७; १३, १७; १४०; १४६-५०;	
१६२; १६७; १४, ११	

नक्षत्रं प्रकरणात् विविध-देव-देवांश-अवताराः

१ देवाः

इन्द्रः

स्कन्द १ [१], १५-७; १, १४-७१;
२, २३

देवी-भाग ६, १-६
पद्य ५, ६६; ७१

रामा ७, ८४; ८५

महा ५, २२; १२, २८०-७; १४, ११

कालिकेयः

लिङ्ग १, १०४; १०५

शिव ६-१६

शिव-महा २ [४], १-१२

स्कन्द १ [१], २०-२१

पद्य ६, ३८

भविष्य १, ४५

भाग २, ७

धामन ५७; ५८

महा ३, २२०-२३; १२, ४६; ४७; ६,
१९; १३, १९७

गणपतिः

शिव ३२-६

शिव-महा ६ [४], ११-२०

हरि १, १

अग्नि ७१

पद्य ५, ६१-३

ब्रह्म-यै ३, १-४६

भविष्य १, २८

वीकरः (कमलनामः)

महा

भाग ११, ४

हरि १, ४१

देवी-भाग ४, १६

इन्द्रः

महा ३२-६

लिङ्गम्

शिव-महा १, ११; १७-२५

पद्य ३, १-५-८

लिङ्ग ७३-६

विविधदेवाः

पद्य ३, ११३

स्कन्द २ [२]; ७ [२], ११.

अग्नि ३१-१०६

गरुड १, २४-३३

देवी-भाग १२, ६

शिवः

अग्नि ३; १६; २१; ४४; ४६; ४७; ७४;
३१८-२७

कूर्म १, १४; १५; २५; २६; २३

शकट १, ५; २२; २३; ४०; ४२

देवी-भाग १, १०; ४, १६

नारद १, ६३; ६४

पद्म ४, ४३; ४७; ६, ३-१६; ९३; ९३;
१८-१-७

ब्रह्माण्ड १, १५-७

भाग ४, २-७; ११, ४

मत्स्य १२८-३६; १७८-८०

लिङ्ग १, ११-६; १७-४४; ६५; ७१; ७२;
६३; ९६; ९८-१०३; १०७; १०८;
२, ८-२७

वराह ६८

वामन १-१०; २१; ५५; ५६; ५६-७०;
७३; ८१; ८२

वायु १, २३-७; ३०; ५४; ५५

शिव ७; ८; २०-४; ३४-४३; ५४-७;
६२-७०शिव-महा १, ६-८; २ [१], ६-११;
१३-२०; २ [२-३]; २ [५]; ३, १; २;
६-४२; ४, १-३६; ५, १; ३; ४; ७
[१], २-७; १८-२३; २५-२१; ३
[२], २-७स्कन्द १ [१], ६-८; २०-३१; १ [२],
१४-३४; १ [३], ५-८

हरि ३, १३३

रामा १, ४३

महा ३, ३८-४१; १३, १७; १४०; १६२;

६, ३३; १०, ७; १७; १८

सूर्यः

अग्नि ७३; ३०१

शकट १, ७; १६; १७; ३९

पद्म ४, ७५-८

ब्रह्म २६-३६

भविष्य १, ४९-२१५; २, २४-९

विष्णु ३, ५

रामा ६, १०५

महा १, १८९; ३, ३

२ देवांशुः

कर्तुनः

देवी-भाग ४, १६

नारदः

भाग १, ३

मान्धाता

ब्रह्माण्ड २, ७३

वायु २, २६; ३६

मत्स्य ४७

वाहराचार्यः

पद्म ६, २६३

३ देवी

सूक्त १, १२
 देवी-भाग १, ४-९; २, १२; ३, १-१३; २४;
 ५, २-३५; ६, २४-३१; ७, २८-३१;
 १८-४०; ८, १; ९; २४; ३, ४-३१;
 ३८-५०; १०, ११-३; १२, ४

पद्य ५, ३; ३: ८०-२
 ब्रह्म-वै २, १-६४
 मत्स्य ४
 मार्क ७८-३०
 यामन ४

दुर्गा

पद्य ३, २२; ६, २४

मिथुनि

पद्याह ६०-७

दुर्गा

पद्य ५, ७८-८२

हरि ४, ८; ६, २१

धामी

पद्य ५, ५८

सावित्री

महा १२, २०४

४ विष्णुः

सगित १-१६; २१-४४; ४६; ६१; ६३;
 २१४-७०; ३०३-८
 सूक्त १, २; ६; १६; १७; २, ४१
 पद्य १, १; ८-१३; १५; ४३; ६१; ६२;
 १४२; ३, १-२६; २२७-३४
 देवी-भाग ४, १-२४
 नाट्य १, ४; ५; ११; १५; १६; ३२;
 ३४-६
 पद्य १, ५०; ५, ३; ४; १३; ३७; ४२;
 ५०; ७३; ७४; २, ८७; ३, १; ६; ७२;
 ७३; ८१; ७३; १२६-८; १२२;
 १६३; २४७-७१; २८२
 ब्रह्म ७०-१०४; ११५-२०; २१३
 ब्रह्म-वै १, ३-६; १२-३०
 महापद्य २, ७६; ७३

भाग १, ३; २-०; २, ७; ३, १३-६; ७,
 १-१०; ८, २-४; ८-१०; ११, ४
 मत्स्य १, १३-६; ४७; १६०-३; १६६-७७;
 २४३-५०; २४६
 मार्क ४
 लिङ्ग १, ६४-६; २, ४-७
 पद्याह ३-६; ११३; ११४
 यामन २४-३१; ७७-६४
 बायु १, ६; २५; २, ३०; ३६
 विष्णु १, ४; १६-२२
 शिव ५८-६०
 शिव-महा २ [१], ६-१०
 स्कन्द १ [१], १-१४; १८; १६; २, १
 हरि १, ४०-५५; ३, १; ३४-७२

महा १२, २-९; ३३९; ३४०; ३४८;

३५२-६१; १३, १४६-५०

श्रीधरदेव.

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

कच्छपः

पद्य ५, ७३

कपिलः

भाग १, ३; २, ७

कल्किः

अग्नि १६; ४६

मत्स्य ४७

पद्य ५, ७३; ६, २५७

वायु २, ३५; ३६;

ब्रह्म २१३

विष्णु, ४, २४

ब्रह्माण्ड २, ७३

हरि १, ४१

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

महा १२, १४०; १४०

कूर्मः

अग्नि ३; ४६

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

गरुड १, १४२

मत्स्य २५६

पद्य ५, ४; ६, २५७; २५९; २६०

महा १२, ३४०; ३४०

कृष्ण

अग्नि १२; १३-५

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

देवी-भाग ४, १६

मार्क ४

पद्य ५, १३; ६, २२७

वायु २, ३५; ३६

ब्रह्म १५०; २१३

विष्णु ४, २४

ब्रह्म-धै ४, १; २

हरि १, ४१

ब्रह्माण्ड २, ७३

महा १२, ४२; ३२९; ३४०

कृत्वाण्यः

देवी-भाग ४, १६

मत्स्य ४७

ब्रह्म १५०; २१३

मार्क १६

ब्रह्माण्ड २, ७३

वायु २, ३५; ३६

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

हरि १, ४१

धन्वन्तरिः

अग्नि ३

भाग १, ३; २, ७;

गरुड १, १४२

नर-नारायणौ

पद्य ५, १३

मत्स्य ४७

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

विविध-देव-देवीज-भवताराः

नरसिंहः

भाग १, ३; २, ७
मत्स्य ४७; १६१-३; २५६
मार्क ४
लिङ्ग १, ६५; ६६
घांयु २, ३५; ३६
विष्णु १, १६-२०
हरि १, ५१

अग्नि ४; ४६
कूर्म १, १६
गरुड १, १५२
देवी-भाग ४, १६
पद्म ५, १३; ४२; ७३; ६, २१७
ब्रह्म १८०; २१३
ब्रह्माण्ड २, ७१; ७३

महा १२, ३३५; ३४०; ३४८

परशुरामः

ब्रह्माण्ड २, ७३
भाग १, ३; २, ७; ११, ५
मत्स्य ४७
वायु २, ३५; ३६
हरि १, ५१

अग्नि ४; ४६
गरुड १, १५२
देवी-भाग ४, १६
पद्म ५, ७३; ६, २१७; २१८
ब्रह्म १८०; २१३

महा १२, ३३५; ३४०; ३४८

वृधः (=वैभ्यः)

वायु २, ३५; ३६
विष्णु १, १३

ब्रह्माण्ड २, ७३
भाग १, ३; २, ७
मत्स्य ४७

पलरामः

भाग १, ३, २, ७
विष्णु ५, १

अग्नि ४६
पद्म ५, ७३

महा १२, ३४८

शुद्धः

भाग १, ३; २, ७
मत्स्य ४७

अग्नि १६; ४६
पद्म ५, ७३; ६, २५७

महा १२, ३४८

मत्स्यः

भाग १, ३; २, ५; ११, ५
मत्स्य २५६

अग्नि २; ४६
गरुड १, १५२
पद्म ५, ४; ७३; ६, २५७; २५८

महा १२, ३४०; ३४८

योहिनी

अग्नि ३
गरुड १, १४२

पद्म ५, ४
भाग १, २

यज्ञः

भाग १, ३; २, ७

रामः

अग्नि ५-११; ४६
गरुड १, १४२
देवी-भाग ४, १६
पद्म ५, ७३; ६: २५७; २६९-७१; २८१
ब्रह्म १००; २१३
ब्रह्माण्ड २, ७३

भाग १, ३; २, ७; ११, ४
मत्स्य ४७; २५६
वायु २, ३२; ३६
विष्णु ४, ४
हरि १, ४१

महा १२, ३३९; ३४०; ३४०

पराहः

अग्नि ४; ४६
कूर्म १, १६
गरुड १, १४२
पद्म ५, ४; १३; ७३; ६, २५७
ब्रह्म १००; २१३
ब्रह्माण्ड २, ७३

भाग १, ३; २, ७; ११, ४
मत्स्य २४७; २५६
मार्क ४
लिङ्ग १, ६४
विष्णु १, ४
हरि १, ४१

महा १२, ३३९; ३४०; ३४०

नामनः

अग्नि ४; ४६
कूर्म १, १७
देवी-भाग ४, १६
पद्म ५, १३; ७३; ६, २५७; २६७
ब्रह्म १००; २१३
ब्रह्माण्ड २, ७२; ७३

भाग १, ३; २, ७
मत्स्य ४७; २४४-६; २५६
मार्क ४
वायु २, ३२; ३६
विष्णु ३, १
हरि १, ४१

महा १२, ३३६; ३४०; ३४०

न्यासः

कूर्म १, ५२
ब्रह्माण्ड २, ७३
भाग १, ३; २, ७
मत्स्य ४७

वायु २, ३५; ३६
विष्णु ३, ३
हरि १, ४१

हयग्रीवः

भाग २, ७; ११, ४

द्वयम् अकरणात्

अधि-यज्ञः

श्रुतिः (वेदः)

१ ऋषिपंश-प्रवराः

कूर्म १, १६; ५२

महाएड १, ११-५

मत्स्य १६४-२०१

महा १२, १४८; २०७; १३, २०६; २१०;
२५५; २७१

२ मन्त्राऽरिष्ट-ग्रहशान्तयः

अग्नि २४; ३१; १२१-४२; २१४; २१६;

२६३; २६३-३२४; ३२७; ३४८

गण्ड १, ७; १६-८; ३३; ३५; ३७; ३८;
१०८; ४, ७६

देवी-भाग ७, ३५; ६, ११; ११, २१; १२,
१-७

नारद १, ३५-७; ५६; ६५-६१

महा ६, ३

यज्ञ ४, १०३

भविष्य २ [३], २०; ४, १४१-६

भाग २, १-१० पुरुषसूक्त-भ्याख्या
मत्स्य ६६; ६१-२; २१७-३६

मार्क ४०

लिङ्ग १, ६१; २, ५३; ५४

वायु १, १६

३ यज्ञ-होम-वेदविधानानि

अग्नि २४; ३०; १६४; १६७; २४६-७१

गण्ड १, ६३

देवी-भाग १२, १-६; १३

यज्ञ ३, १२ नरमेधः

भविष्य २ [२], ६-८; १०-२१, ४, १२६-

३१

सामा ७, ८४-६८ अरवमेधः

महा २, ३३-५ राजसूयः; १०, १८; १२, २०; ५६;

१६३; २७०; २७८; १३, १६५, २३७

४ वेदविभाग-शाखा-त्रयी-माहात्म्यानि

अग्नि १५०; २७१

कूर्म १, ५२

नारद १, ५०,

महाएड १, ३३-५

भाग १२, ६

विष्णु ३, ३-७

वायु १, ६०; २, ४२

सामा २, १०६

महा १, ६०; १२, १३; १३, १३

एकादशं प्रकरणम् अधि-विज्ञानम् १ अर्थ-शास्त्रम्

अग्नि २५३-८

महा १२, ८; १६५ अर्थप्रवृत्ता

२ अलंकार-शास्त्रम्

अग्नि ३३७-४७

३ आदित्यज्योत्-माहात्म्य-पूजाः

ग्रह २६-३१

मार्क ६६-१०७

भाग १२, ११

विष्णु २, ७-१२; ३, ५

भविष्य १, ४९-२१५

रामा ६, १०५

महा १, १८१; ३, ३

४ आयुर्वेदः

अग्नि २७६-३०२; ३६६; ३७०

भविष्य १, ३०-४; ८१

गरुड १, १६-२१; १४६-२०४

स्कन्द ७ [१], २० ✓

ग्रह १; ११

महा ३, २३०; ११, ४; १२, १६; १४, १९

५ कलाः

भाग १०, ४५

हरि २, ३२

विष्णु ५, २१

महा २, ५४

६ कल्पः

नारद १, ५१

७ काम-शास्त्रम्

महा १२, १६५ (कामप्रवृत्ता)

८ गान्धर्वम्

गरुड १, ६७

वायु १, २६; २, २४; २५

नारद १, ५०

स्कन्द ७ [१], ३०५

भाग ६, ६१-६२

९ छन्दः

अग्नि ३२८-३५
गरुड १, २-७-१२

नारद १, ५७

१० ज्योतिषम्

अग्नि १२४; १३६; १२०-४६
सूर्य १, ४१-३
गरुड १, ५७-६
देवी-भाग ८, १५-८
नारद १, ५१; ५४; ५५
ब्रह्म २०-२;
ब्रह्माण्ड १, २१-४
भाग ५, २१-४

मत्स्य १२३-७
अविष्य २ [१], १; ४
लिङ्ग ५४-६२
याजु १, ५१-३
विष्णु २, ५-१२
शिव ५, १६
स्कन्द १ [२] ३८; ७ [१], ११; ९०

महा २, ११; ३, ११४; ९३०; ६, १२;
१३, ११०

११ तन्त्रम्

अग्नि १२५; १३७; १३८; २५६-७१
गरुड १, ४१

लिङ्ग २, ५०-२

१२ घनुर्वेदः

अग्नि २४६-५२

याम्य १, २७; २८; ३०; ५१; २, ११;
३, ११
महा १, २२४; ३, १२-३६; ४१-५२; ४,
१३; ५, १६२-७२, ७, १८३-२०२;
१०, १०-८

१३ निरुक्तम्

नारद १, ५२

१४ नीति-शास्त्रम्

अग्नि २३८; २५३-८
गरुड १, १०८-१५

३३-४०

महा १, ८१; १४२; १४३; २, ३-१२;
३, ३२; ५, ३३-४०; ११, २; ८६;
१२, ८१; १३, ३५

एकादशं प्रकरणम्

अधि-विज्ञानम्

१ अर्थ-शास्त्रम्

अग्नि २५३-८

महा १२, ८; १६५ अर्थप्रसंगता

२ अलंकार-शास्त्रम्

अग्नि ३३७-४७

३ आदित्यव्यूह-माहात्म्य-पूजाः

ग्रह २६-३१

मार्क १६-१७७

भाग १२, ११

विष्णु २, ७-१२; ३, ५

भविष्य १, ४९-२१५

शामा ६, १०५

महा १, १८६; ३, ३

४ आयुर्वेदः

अग्नि २७६-३०२; ३६६; ३७०

भविष्य १, ३०-४; ५१

गण्ड १, १६-२१; १४६-२०४

स्कन्द ७ [१], २० ✓

ग्रह १; ११

महा ३, २३०; ११, ४; १२, १६; १४, १२

५ कलाः

भाग १०, ४५

हरि २, ३३

विष्णु ५, २१

महा २, ५४

६ कल्पः

नारद १, ५१

७ काम-शास्त्रम्

महा १२, १६५ (कामप्रसंगता)

८ गान्धर्वम्

गण्ड १, ६७

वायु १, २६; २, २४; २५

नारद १, ५०

स्कन्द ७ [१], ३०५

भाग २, ६१-६२

अधि-विज्ञानम्

२१ विद्या

शिव महा १, ३४-४१; २ [३]. ५०

अग्नि १३४-७; ३०६-१२

रामा ५, ३-७; ८१

महा ३, १०; ३६; ३७, ८०; ६, २६; १२,

१२२

२२ विविधग्रन्थ-सारः

अग्नि ५-११ रामायणम्; १२ हरिबंधः;

१३-५ महाभारतम्; १२४ ज्योतिषम्;

३२८-३५ छन्दः

गरुड १, ५४३ रामायणम्; १, १४४

हरिवंश; १, १४५ महाभारतम्; १,

२३७-८ गीता; १, ६३-१०७ याज्ञवल्क्य-

महा ३, २७४-६३ रामायणम्; १२, २५२

कठोपनिषद्; १३, १०६ कठोपनिषद्;

१२, ५८ प्रसङ्ग-व्यवहारीति;

स्मृति; १, १०८-१५ बृहस्पति-नीतिः;

१, २०५-६ कात्यायन-व्याकरणम्

देवी-भाग १२, ७

पद्म ४, ११२ रामायणं पुराकल्पीयम्; ५,

१७७-८८ गीता

मार्क १-७ महाभारतशक्यायमाधानम्

२३ व्याकरणम्

नारद १, ५२

अग्नि ३४६-६७

गरुड १, २०५; २०६

२४ शिक्षा

अग्नि ३३६

२५ सर्प-विद्या

भविष्य १, २९-३८; ९१

अग्नि २६४-७

गरुड १, १९; २०; २७, १४६-२०४

महा १, १५; १६; ३४; ३५, ३८; ५७;

३८; १३, २३

२६ सामुद्रिकम्

नारद १, ५४, २२ सखित-जातकम्

गरुड १, ५८-६७

रामा २, ६९ स्वप्नः



१५ पशु-चिकित्सा

अग्नि २८७; २८६-६२

गण्ड १, २०४; ३, १४

रामा १, ६; ३, ४३

१६ रत्न-परीक्षा

अग्नि २४६

देवी भाग ८, ११; १२

गण्ड १, १८-८०

महा १०

१७ लोकाः

अग्नि १२०; ३७१

भविष्य २ [१], ३; ४

कूर्म १, ४१-४

भाग ५, २४

गण्ड १, ५७

मत्स्य ६१

देवी-भाग ८, १६-२३

मार्क १२-४

पद्म २, १४; १६

घातु १, ५०; २, २९

ब्रह्म २०

विष्णु २, ५; ६

ब्रह्माण्ड १, २०; ३, २

स्कन्द ६, २६; २२६; ७ [१], २२५

रामा ४, २१; ७, २१; १३, २३

महा १३, ४१-११३; १८, १-६

१८ वनस्पति-शास्त्रम्

अग्नि २८२

गण्ड ३, १४

१९ वस्तु-सारासारः

गण्ड ३, १४

२० वास्तुनिर्वा-शिल्प-मूर्तयः

अग्नि २१-१०६; २४७; ३२७

पद्म ५, ५६

गण्ड १, ४५-८

मत्स्य ५८; ५६; २५७-६६

देवी-भाग १२, ११; १२

घातु २५१-६

नारद १, १३

स्कन्द २ [१], १-१४; २ [२], १-२

रामा २, ८०; ८३; ६, २१-४

महा १, १४४-५४; २२६; २२७; २,

५-२२; ५०; ३, २८४

मार्क ५१-७
लिङ्ग १, ४८-५२
वराह ७५-८५
वामन ११ (३३; ३४)
वायु १, ३४-४८

विष्णु २, २; ३
शिव-महा ५, १७ (१-४४)
स्कन्द १ [२], ३७ (२६-४४), ७ [१],
२२; १७२

महा २, २६; ६, १-५

५ नद्यः

कूर्म १, ४७ (२८-३९)
ब्रह्माण्ड २, १६ (२४-४०)
मत्स्य ११४, (२०-३२)

मार्क ५४, (१६-३०)
वामन १३, (२०-३३)
वायु १, ४५ (६४-१०८)

ऋक्ष-निःसृताः

करमोदा
कमुः
क्रिया
चित्रदूदा
चित्रोत्पला
समसा

त्रिदिवा
दशाष्टा
नर्मदा
पिप्पलधोपी
पिशाचिका
बालुवाहिनी

मन्वुला
मन्दाकिनी
मदानदी
सजा
विपासा
शकुली

द्युहिमती
शुनी
शोषा-
सुरसा

पारियात्र-निःसृताः

अश्वती
कुन्ती
चन्द्रना
चर्मएवती

पर्णाद्या
पारा
मही
सूपी !

त्रिदिवा
द्वजनी
वेशवती
वेदवती

वेदसृतिः
शिम्रा
सदानौरा
सिन्धुः

कुलमाला

उत्पलावती

मलय-निःसृताः

ताम्रपर्णी

सुगन्धा

इन्दुला
श्रुपिकुल्या

त्रिदिवा
त्रिसामा

महेन्द्र-निःसृताः

साङ्गुलिनी
वंशधरा

अन्तःशिला
कुमुदती
तापी
तोया

दुर्गा
निर्विन्ध्या
निपधानती
पयोगी

विन्ध्यपाद-निःसृताः

महागौरी
वेरवा
वेतरणी
शिविवाहुः

शिम्रा

द्वादशं प्रकरणम्

सू-वृत्तम्

१ कुश-द्वीपः

अग्नि ११६ (११-३)	मत्स्य १०२, (४६-७७)
कूर्म १, ४६ (२०-६)	लिङ्ग १, ५३ (६-१२)
गरुड १, ५७ (८-११)	घराह ८७
देवी-भाग ८, १२ (२८-३७)	वायु १, ४९ (४६-५७)
ब्रह्म १८, (३५-४५)	विष्णु २, ४ (३५-४५)
ब्रह्माण्ड १, १६ (५२-६४)	शिव-महा ५, १८ (३६-४४)
भाग ५, २० (१३-७)	स्कन्द १ [२], ३७ (६४-६)

महा ६, १२

२ कौश-द्वीपः

अग्नि ११६, (१४-७)	मत्स्य १२२, (७८-६०)
कूर्म १, ४६ (२७-३३)	लिङ्ग १, ५३ (१३-६)
गरुड १, ५७ (१२-४)	घराह ८८
देवी-भाग ८, १३ (१-१५)	वामन ११, (३७)
पद्म १, ६ (७-२४)	वायु १, ४६ (५८-७२)
ब्रह्म १८ (४६-५६)	विष्णु २, ४ (४६-५८)
ब्रह्माण्ड १, १६ (६५-७६)	शिव-महा ५, १८ (४५-५२)
भाग ५, २० (१८-२३)	स्कन्द १ [२], ३७ (६७-७१)

महा ६, १२

३ गोभेदः

मत्स्य १२३, (१-१२)	स्कन्द १ [२], ३७ (७६-६)
घराह ८६ (४)	

४ जम्बू-द्वीपः

अग्नि १०८-१८	पद्म १, ३-७; ६, १२६
कूर्म १, ४५-८	ब्रह्म १७
गरुड १, ५४; ५३; २, ४८	ब्रह्माण्ड १, १५-८
देवी-भाग ८, ५-११	भाग ५, १६-६
नारद १, ३; ४४-८३	मत्स्य ११३-२१

११ पृथिवी-विभागाः

मार्क ५१. (१-७)

नारद १, ५६

१२ पृथिवी-संस्थानम्

मार्क ४४, (१-१४)

घराह ११३; ११४

वायु १, ६; ८

विष्णु १, ६ (२६-४०)

स्कन्द २ [१], १; २; ३६; ४ [३], १८६

कूर्म १, ६

देवी-भाग ८, २

पद्म ५, ३

ब्रह्माण्ड १, ५ (२३-८)

भाग ४, १३

महा ३, १४४

१३ प्लक्ष-द्वीपः

भाग ५, २० (१-७)

लिङ्ग १, ५३ (१-४)

वामन ११ (३५; ३६)

वायु १, ४६ (१-२८)

विष्णु ०, ४ (१; २)

शिव-महा ५, १८ (३१)

अग्नि ११६, (१-६)

कूर्म १, ४६ (१-१२)

गरुड १, ५६ (१-७)

देवी-भाग ८, १३ (१-१७)

ब्रह्म १८, (१; २)

ब्रह्माण्ड १, १६ (१-३२)

१४ भारत-प्रशस्तिः

ब्रह्म २५

नारद १, १ (४६-८३)

१५ भू-मण्डलम्

रामा ४, ४०-६७

महा २, २५-३२, ३, ८०-१४८

१०७-१०; ६, १-१२

१६ लोकालोक-पर्वतः

मविष्णु १, १२५ (७)

भाग ५, २० (३४-८)

लिङ्ग १, ५३ (३१-५)

वायु १, ४६ (१४०, १४१)

विष्णु २, ४ (६४)

शिव-महा ५, १८ (७३-७)

स्कन्द १ [२], ३७ (२५; २६)

अग्नि ११६, (२७; २८)

कूर्म १, ५० (१४, १५)

गरुड १, ५७ (२०; २१)

देवी-भाग ८, १४ (१-६)

पद्म ५, ३

ब्रह्म १८, (६६-६)

ब्रह्माण्ड १, १६ (१५०-४)

ऋषिकुल्या
कुमारी

कृष्ण
पताशिनी

मन्दरा
मन्दवाहिनी

शुक्लिमत्पाद-निःसृताः

सहस्रपाद-निःसृताः

कावेरी
कृष्णा
मोदावरी

तुङ्गभद्रा
बाह्या
नेत्रवा

भीमरथी
वन्द्युला
सुप्रयोगा

हिमवत्पाद-निःसृताः

इन्द्रः
हरावती
कृष्णः
कौशिकी
गङ्गा
गण्डकी

गोमती
चन्द्रभागा
तृतीया
द्वयद्वती
देविका
भूतपापा

निथीरा
बाहुदा
यमुना
लौहित्यः
वितस्ता
विपाशा

शतद्रुः
सरयू
सरस्वती
सिन्धुः

६ पर्यव-विभागः

ब्रह्माण्ड १, ७ (११; १२)

वायु १. ६ (३०; ३१), १, ८ (१०)

७ पुष्कर-द्वीपः

अग्नि ११६, (२२-५)
कूर्म १, ५० (१-१३)
गण्ड १, ५७ (१२-४)
देवी-भाग ८, १३ (२७-३६)
पद्म १, ६ (२४-६)
ब्रह्म १८, (७४-६५)
ब्रह्माण्ड १, १६ (१०८-३०)
भाग ५, २० (२६-३३)

मत्स्य १२३, (१३-२७)
लिङ्ग १, ५३ (१७-६)
वराह ८६, (४)
धामन ११, (३६; ४८-५८)
वायु १, ४६ (१०३-२०)
विष्णु २, ४ (७३-८६)
शिव-महा ५, १८ (६६-७३)
स्कन्द १ [२], ३७ (८०-५)

८ पृथिवी-अटनम्

मार्ग ५८ (११)

९ पृथिवी-आकारः

ब्रह्माण्ड १, १६ (१५७)

वायु १, ४ (८६)

१० पृथिवी-परिमाणम्

ब्रह्माण्ड १, २२ (८-१६)
मार्क ५१ (१-७)

विष्णु २, ४ (६६; ६७)

११ पृथिवी-विभागाः

शारद १, ५६

मार्क ५१. (१-७)

१२ पृथिवी-संस्थानम्

कूर्म १, ६

देवी-भाग ८, २

पद्म ५, ३

ब्रह्माण्ड १, ५ (२३-८)

भाग ६, १३

मार्क ४४, (१-१४)

वराह ११३; ११४

वायु १, ६; ८

विष्णु १, ६ (२६-४०)

स्कन्द २ [१], १; २; ३६; ५ [३]. १८६

महा ३, १४४

१३ प्लक्ष-द्वीपः

अग्नि ११६, (१-६)

कूर्म १, ४६ (१-१२)

गरुड १, ५६ (१-७)

देवी-भाग ८, १२ (१-१७)

ब्रह्म १८, (१; २)

ब्रह्माण्ड १, १६ (१-३२)

भाग ५, २० (१-७)

लिङ्ग १, ५३ (१-४)

यामन ११ (३५; ३६)

वायु १, ४६ (१-२८)

विष्णु २, ४ (१; २)

शिव-महा ५, १८ (३१)

१४ भारत-प्रशस्तिः

शारद १, ३ (४६-८३)

ब्रह्म २५

१५ भू-मण्डलम्

रामा ४, ४०-६७

महा २, २५-३२, ३, ८०-१४८; ३

१०७-१०; ६, १-१२

१६ लौकालोक-पर्वतः

अग्नि ११६, (२७; २८)

कूर्म १, ५० (१४; १५)

गरुड १, ५७ (२०; २१)

देवी-भाग ८, १४ (१-६)

पद्म ५, ३

ब्रह्म १८, (६६-६)

ब्रह्माण्ड १, १६ (१५०-४)

भविष्य १, १२५ (७)

भाग ५, २० (३४-८)

लिङ्ग १, ५३ (३१-५)

वायु १, ४६ (१४०; १४१)

विष्णु २, ४ (६४)

शिव-महा ५, १८ (७३-७)

स्कन्द १ [२], ३७ (२५; २६)

शुक्लिमत्पाद-निःसृताः

अभिक्रुत्या	कूगा	मन्दगा
कुमारी	पलाशिनी	मन्दवाहिनी

सह्यापाद-निःसृताः

कावेरी	तुङ्गभद्रा	भीमरथी
कृष्णा	बाह्या	वन्शुला
गोदावरी	चेष्ठा	सुप्रयोगा

हिमवत्पाद-निःसृताः

इन्द्रः	भोमती	निधीरा	शतद्रुः
इरावती	चन्द्रभागा	बाहुदा	सरयू
कुङ्कः	तृतीया	यमुना	सरस्वती
कौशिकी	दृपद्वती	औहित्यः	सिन्धुः
गङ्गा	देविका	वितस्ता	
मण्डकी	भृतपाषा	विपासा	

६ पर्वत-विभागः

ब्रह्माण्ड १, ७ (११; १२)

वायु १, ६ (३०; ३१), १, ८ (१०; ११)

७ पुष्कर-द्वीपः

अग्नि ११६, (२२-५)
 कूर्म १, ५० (१-१३)
 गरुड १, ५७ (१२-४)
 देवी-भाग ८, १३ (२७-३६)
 पद्म १, ६ (२४-६)
 ब्रह्म १८, (७४-६५)
 ब्रह्माण्ड १, १६ (१०८-३०)
 भाग ५, २० (२६-३३)

मत्स्य १२३, (१३-२७)
 लिङ्ग १, ५३ (१७-६)
 वराह ८६, (४)
 वामन ११, (३६; ४८-५८)
 वायु १, ४६ (१०३-२०)
 विष्णु २, ४ (७३-८६)
 शिव-महा ५, १८ (६६-७३)
 स्कन्द १ [२], ३७ (८०-५)

८ पृथिवी-अटनम्

मार्ग ५८ (११)

९ पृथिवी-आकारः

ब्रह्माण्ड १, १६ (१५७)

वायु १, ४ (८६)

१० पृथिवी-परिमाणम्

ब्रह्माण्ड १, २१ (८-१६)
 मार्क ५१ (१-७)

विष्णु २, ४ (६६; ६७)

११ पृथिवी-विभागाः

मार्क ५१, (१-७)

नारद १, ५६

१२ पृथिवी-संस्थानम्

कूर्म १, ६
देवी-भाग ८, २
पद्म ५, ३
ब्रह्माण्ड १, ५ (२३-८)
भाग ६, १३

मार्क ४४, (१-१४)
बराह ११३; ११४
वायु १, ६; ८
विष्णु १, ६ (२६-४०)
स्कन्द २ [१], १; २; ३६; ४ [३], १८६

महा ३, १४४

१३ प्लक्ष-द्वीपः

अग्नि ११६, (१-६)
कूर्म १, ४६ (१-१२)
गरुड १, ५६ (१-७)
देवी-भाग ८, ११ (१-१७)
ब्रह्म १८, (१; २)
ब्रह्माण्ड १, १६ (१-३२)

भाग ५, २० (१-७)
लिङ्ग १, ५३ (१-४)
वामन ११ (३५; ३६)
वायु १, ४६ (१-२८)
विष्णु २, ४ (१; २)
शिव-महा ५, १८ (३१)

१४ भारत-प्रशस्तिः

ब्रह्म २५

नारद १, ३ (४६-८३)

१५ भू-मण्डलम्

रामा ४, ४०-६७
महा २, २५-३२, ३, ८०-१४८,
१०७-१०; ६, १-१२

१६ लोकालोक-पर्वतः

अग्नि ११६, (२७; २८)
कूर्म १, ५० (१४; १५)
गरुड १, ५७ (२०; २१)
देवी-भाग ८, १४ (१-६)
पद्म ५, ३
ब्रह्म १८, (६६-६)
ब्रह्माण्ड १, १६ (१५०-४)

भविष्य १, १२५ (७)
भाग ५, २० (३४-८)
लिङ्ग १, ५३ (३१-५)
वायु १, ४६ (१४०; १४१)
विष्णु २, ४ (६४)
शिव-महा ५, १८ (७१-७)
स्कन्द १ [२], ३७ (२५; २६)

१७ वृष्टिः

विष्णु २, ६ (६-२२)

ब्रह्माण्ड १, २२ (१२-५६)

वायु १, ५१ (१३-५३)

पद्म १, ६ (६)

अग्नि ११६, (१८-२१)

कूर्म १, ४६ (३३-७२)

गरुड १, ५७ (१२-४)

देवी-भाग ८, १३ (१६-२६)

पद्म १, ६ (७-२४)

ब्रह्म १८, (५६-७४)

ब्रह्माण्ड १, १६ (८०-१०७)

भाग ५, २० (१८-२३)

महा ६, ११

२० शालमल-द्वीपः

अग्नि ११६ (७-१०)

कूर्म १, ४६ (१३-६)

देवी-भाग ८, १२ (१-१७)

पद्म १, ६ (६)

ब्रह्म १८, (२१-३५)

ब्रह्माण्ड १, १६ (३३-५१)

भाग ५, २० (८-१२)

महा ६, १२

२१ सप्त द्वीपाः

देवी भाग १२, १०

नारद १, ३ (४१-५)

पद्म १, ६ (२६-४०)

ब्रह्माण्ड १, १६ (१३७-५२)

भविष्य ३, २४ (७८; ७६)

मत्स्य १२३, (२०-६४)

वामन ११, (४८-५८)

स्कन्द १ [२], ३७ (१४-२१)

२२ समुद्र-वेला (ज्वार भाटा)

अग्नि ११६, (२५; २६)

ब्रह्म १८, (६०-४)

ब्रह्माण्ड १, १६ (१३१-६)

शिव-महा ५, १८ (७३-७)

स्कन्द १ [२], ३७ (२१-४)

२३ सूर्यावरोधात् दानिः

मार्क १६, (३२-७५)